

MANUFACTURER OF STAINLESS STEEL WELDED PIPES, TUBES & U-TUBES An ISO 9001-2008, ISO 14001-2004, OHSAS 18001-2007, PED Certified Company

March 10, 2021

То,	То,
The Manager,	The Manager,
BSE Limited	National Stock Exchange of India Limited
Listing Department,	Listing & Compliance Department,
Phiroze Jeejeebhoy Towers,	Exchange Plaza, Bandra - Kurla Complex,
Dalal Street, Mumbai - 400 001	Bandra (E), Mumbai - 400 051.

Sub.: Submission of Newspaper Advertisement -Notice for convening Extra-Ordinary General Meeting(" EOGM") of Prakash Steelage Limited ("the Company")

Ref.: <u>Regulation 47 of the SEBI (Listing Obligations and Disclosure Requirements) Regulations,</u> 2015

Scrip Code: 533239 (BSE); PRAKASHSTL (NSE)

Pursuant to Regulation 47 of the Securities and Exchange Board of India (Listing Obligations and Disclosure Requirements) Regulations, 2015, please find enclosed herewith copy of the newspaper notices giving details of the notice convening EOGM, cut-off date and e-voting information published in yesterday's newspapers i.e., March 9, 2021 in Business Standard(English Newspaper) and Mumbai Laksadeep Marathi (Regional) Newspaper.

Kindly take the same on your record.

Thanking you,

Yours faithfully, For **Prakash Steelage Limited**

Leela Bisht Company Secretary & Compliance Officer

PUBLIC NOTICE In pursuance to the implementation & execution of Circular dated 25.02.2021 vide outward no. Sankim2020/pra.kra.24/13-sa from the desk of Co-operation Minister, Mantralaya, Mumbai, Notice is hereby given that the Annual General Body Meeting of Gautam Co. op. Housing Society Ltd., having its Registered Address at Rushivan Complex, Kajupada Hill, Borivali (East), Mumbai- 400 066 is going to be held on 21st March, 2021 at 09.30 AM i.e. SUNDAY, through Video-Conferencing Mode, and the related link of Video-Conferencing shall be given to all the members of the Society Two or Three days in Advance on the What's App Mobile Number, as well as on the E-mail **PUBLIC NOTICE KUNTAL GRANITES PRIVATE LIMITED PUBLIC NOTICE** PUBLIC NOTICE **Expression of Interest** Regd Office: 1A-Anchorage, Ground Floor, 7 Vaccha Gandhi Road, New Gamdevi, NOTICE is hereby given that my client has negotiated to purchase Notice is hereby given that (For running of canteen) Mumbai - 400 007, CIN: U14290MH1988PTC049659, Tel: 022 2380 5367. and acquire from Shirish Family Trust a private trust formed **MAHA**GENCO Share certificate no 54, for 10 Email id: info@kuntalgranites.com under the Indian Trust Act, 1882 having its registered address at shares bearing distinctive FORM NO. INC-26 83/B & C, Seth Govindrao Smruti, Dr Annie Besant Road, Worli The Chief Engineer, Thermal Power Station Paras, invites No.'s from 531 to 540 of IRIS [Pursuant to Rule 30 of the Companies (Incorporation) Rules, 2014] Naka, Mumbai 400 018 through its present trustees (1) Ms Bharti S Expression of Interest (EOI) from the interested Reputed A,B,C Co-op Housing Advertisement to be published in the newspaper for change of registered office of Mody (2) Mr Nirav S Mody (3) Ms Priti R Shah and (4) Ms Deepali S Society Ltd situated at the Company from State of Maharashtra to the State of Tamil Nadu firm/Registered Industrial canteen services provider, for Mody ('Owner') all its respective right title and interest in the PUBLIC NOTICE Lodha Paradise, EE running of canteen services round the clock at Paras TPS Property including Unit 1, Unit 2, Shares 1 and Shares 2 described Before the Central Government, Regional Director, Western Region Highway, Majiwade, in the Schedule setout hereunder. Address for submission of Proposal & Contact-In the matter of sub-section (4) of Section 13 of Companies Act. 2013 and clause (a) o Thane(w) 400601 in the name of Smt.M.Krishnan & All persons having any claim against or in respect of the Property sub-rule (5) of rule 30 of Companies (Incorporation) Rules, 2014 Chief Engineer, Mahagenco TPS, V. N. Paras Tq. Balapur, Dist including Unit 1, Unit 2, Shares 1 and Shares 2 or any part thereof AND Akola-444 109. (Contact No. 7507776389) In the matter of Kuntal Granites Private Limited having its registered office at 1A-Anchorage and all the title deeds/documents in original by way of sale, lease, Shri.M.Krishnan has been mortgage, gift, lien, charge, trust, maintenance, easement, pre-Ground Floor, 7 Vaccha Gandhi Road, New Gamdevi, Mumbai – 400 007, Maharashtra Last date for Submission of Proposal is 28 March, 2021. reported lost / misplaced & emption, lis pendense or otherwise howsoever are required to ... Applican an application has been For all details please visit website Notice is hereby given to the General Public that the Company proposes to make an make the same known in writing supported by authenticated made by them to the society Number, as well as on the E-mail Id's of the Members, by the Expert appointed by the Society. https://mahagenco.in//Tenders/ParasTenders//EOI for photocopies of valid/effectual documents to the undersigned at my office within fourteen (14) days from the date of publication hereof, application to the Central Government under Section 13 of the Companies Act, 2013 seeking for issue of duplicate share confirmation of alteration of the Memorandum of Association of the Company in terms of canteen Chief Engineer The society hereby bring to kind attention of those members, who have not submitted their E-mail Id and/or What's App Mobile Number, by this Public Notice hereby requested to submit their details to Mr. Pravin Bhogal, Desk Manager of the Society his What's certificate. the Special Resolution passed at the Extra Ordinary General Meeting held on 01st March otherwise the transfer of the Property including Unit 1, Unit 2, MSPGCL, TPS, Paras The society hereby invites 2021 to enable the Company to change its Registered Office from "State of Maharashtra Shares 1 and Shares 2 in favour of my client will be completed claims or objections (in to "State of Tamil Nadu" without reference to such claim and the same if any will be Any person whose interest is likely to be affected by the proposed change of the registere writing) for issuance of PUBLIC NOTICE considered as waived. office of the Company may deliver either on the MCA-21 portal (www.mca.gov.in) by Schedule of the Property duplicate share certificate filing investor compliant form or cause to be delivered or send by registered post of his TO WHOMSOEVER IT MAY CONCERN (i) Unit bearing no.14 admeasuring 455 Sq. ft. (built up area) on the ground floor of the building known as "TV Industrial Estate" ("Building") situate at the Junction of Sudam Kalu Ahire Marg & within the period of 14 days This is to inform the General Public that following Share Certificate of her objections supported by an affidavit stating the nature of his / her interest and grounds of opposition to the Office of the Regional Director, Western Region, at the address Everest Advantage of the Society, his What's App Contact Number **91672 66836 OR** the members can send their Email Id and What's App Mobile Number on the Society E-mail Id, which is **gautamchsitd@gmail**. Name of Company) HINDUSTAN FOODS LTD. having its Registered from the date publication of 5th Floor. 100. Marine Drive. Mumbai - 400 002, Maharashtra, within fourteen days of the Office at Centrium Level 2, 15 LBS Marg Mumbai- 400070. Registered this notice. If no claims n the name of the following Shareholder/s have been lost by the Worli Road Mumbai 400 030 in the Registration District Mumbai date of publication of this notice with a copy to the applicant company at its registere /objections are received City on the land bearing New Survey no 3050 and 3051 and C. S. office at the address mentioned below: Folio Certificate Distinctive No. of Sr. Name of the during this period the society 1A-Anchorage, Ground Floor, 7 Vaccha Gandhi Road, New Gamdevi, Mumbai – 400 007 No. Shareholder/s No. No./s Number/s Shares Nos. 1/1629 of Lower Parel Division ("Unit 1") alongwith the five shall be free to issue For and on behalf of the Applicant com, so that society able to sent the Video-Conferencing Link on E-mail (5) equity shares of Worli Industrial Properties Private Limited (now 1. Amita Nilesh Shah A00652 7919 772208 100 KUNTAL GRANITES PRIVATE LIMITED Id, as well as on What's App Mobile Number. duplicate share certificate known as Worli Industrial Properties Limited) ("the Company") of 2. Sushila Ghanshyamda Place: Mumbai MAHESH GANDH 772307 Rs100/- each bearing distinctive number 221 to 225 Shah Date : 09/03/2021 Date: 08th March. 2021 DIRECTOR All members are requested The Public are hereby cautioned against purchasing or dealing in any inclusive) in the Share Certificate no 45 on 24th June, 1993 and Place : Thane DIN: 00166159 to attend the AGM in view of the importance of the Agenda. thirty(30) equity shares of the Company of Rs100/- each bearing vay with the above referred Share Certificates. Any person who has any claim in respect of the said Share Certificate/s distinctive number 2056 to 2085 (both inclusive) in the Share Mumbai 06.03.2021 Any policies and the laim with the Company or its Register & Transfer Agents Link Intime India Pvt.Ltd., C- 101, 247 Park, L.B.S. Marg, Certificate n 195 on 29th November, 2002 both in name of the then trustees of the Shirish Family Trust ("Shares 1"); and (ii) Unit For Gautam Co. op. Housing Society Ltd., bearing no.14/A admeasuring 410 Sq. ft. (built up area) on the Vikhroli (West), Mumbai-400083, Maharashtra. within 15 days of publication of this notice after which no claim will be entertained & the ground floor of the Building ("Unit 2") alongwith the five (5) equity Company shall proceed to issue Duplicate Share Certificate/s. shares of the Company of Rs100/- each bearing distinctive number Hon. Secretary Name of Shareholders: Amita Nilesh Shah & 226 to 230 (both inclusive) in the Share Certificate no 24 on 24th June, 1993 and thirty(30) equity shares of the Company of Rs100/-Place: Mumbai, Date: 9-3-2021 Sushila Ghanshyamdas Shah. **PUBLIC NOTICE** each bearing distinctive number 2086 to 2115 (both inclusive) in PUBLIC NOTICE LOSS OF SHARE CERTIFICATE PUBLIC NOTICE FOR SALE OF IMMOVABLE PROPERTIES the Share Certificate no 196 on 29th November, 2002 both in name On behalf of my client i.e. prospective buyer of the Flat premises bearing No. 5, on ground have lost my share certificate of Pirama iterprises Limited vide share certificate Notice is hereby given that for ACC of the then trustees of the Shirish Family Trust ("Shares 2") LIMITED shares bearing No. 32 Shares Nos. 40309 & 39070, No. of shares 8 & 37 Distinctive No. 190208468 to 19020847 premises bearing No. 5, on ground floor in the building known as Divine Life of Divine Life & Divine Land Co-operative Housing Society Ltd. having Registration No. T.N.A., (T.N.A.) / HSG / (TC) / 4379 / 91-92 at Jesal Park, Bhayandar (East), District: Thane, Pin code: 401105 Date: 9th March, 2021 Raiarambapu Sah. Bank Ltd. Peth has decided to sale following Sd/under Folio No. G000001744 Distinctive Place: Mumbai (Jainey Nandu Gangar) No. 60015963 to 60015994 of ACC 190182784 to 190182820 under th Advocate, High Court 2/33, Nav Sarvodaya Society, A.W.V. Marg Dixit Road Ext. owned immovable properties. The details of properties are as under Folio No. SB00450 & SB00451. Which has LIMITED standing in the name(s) of been recorded in Sinthi Police Station vide Gulbanobai Gulamali Abdul Rasool 1) Commercial Unit No. 3 admeasuring 5012 sq. ft. (carpet) on 2nd Floor. Vile Parle (East) Mumbai 400 057 GDE No. 1436 Dated 12.12.2020. And and Shirin Gualamali Abdul Rasoo any claim please register with the compan 2) Commercial Unit No.3 admeasuring 5012 sq. ft. (carpet) on 4th Floor. has / have been lost or misplaced and sidence office within 15 days from the dat on plot of land bearing old Survey No. 159 to 164, New Survey No 20 to 25. I the undersigned, hereby the undersigned has / have applied to the of publication will proceed to inner duplicat In the Commercial Building Known as "THE BUSINESS BAY" situated company to issue duplicate(s) for shares. certificate If anybody found please call Any person(s) in possession of said share Shyamal Kumar Talukdar :- Contact No on the NA land admeasuring about 3455,7 sq. mtrs,, bearing Survey nvite claims or objections from an invite claims or objections from an interested person or institution having any forms of rights, charge or lien, over the rights, title interests on the said premises as 9875448917. certificates or having any claim(s) to the said shares should notify to and lodge No.638/3 and being portion of Survey No. 46. Hissa No. 2 (Part). such claims(s) with the Shares Departmen Survey No.62, Hissa No.7 (Part), Survey. No. 46, Hissa No. 5E & of the company at Cement House 121 Public Notice in Form XIII of MOFA (Rule 11(9) (e)) described herein under; and i Maharshi Karve Road, Mumbai - 400020 Survey No. 45. Hissa No. I (Part) of Village Mohili, Taluka Kurla on hereby called upon to communica-tion in writing, at my office; with copies of such documents and **District Deputy Registrar, Co-operative Societies,** within 21 days from the date of publication of this notice after which Kurla Andheri Road, in the Registration Sub-District Kurla, District Mumbai City (4) period no claims will be entertained other proofs in support of their claims / objections towards the said premises for sale,transfer, Bhandari Co-op.Bank building, 2nd floor, P. L. Kale Guruji Marg, Dadar (West), Mumbai-400028. Mumbai Suburban and with in the limits of Municipal Corporation of and the company will proceed to issue duplicate shares certificate. Greater Mumbai. endorsement and issuance of share certificate for the original Share Certificate No. **12** for FIVE Shares Place: Mumbai No.DDR-4/Mumbai/ Deemed Conveyance/Notice/588/2021 Application u/s 11 of Maharashtra Ownership Flats Date: - 03/03/2021 Date: 09th March, 2021 Sd/-Interested parties may send proposal in on mail address bearing Distinctive nos. from 156 to 160 (both inclusive) Rs 50/- per share for premises at Flat No 5 of Wing "B" of Divine Life & Divine Land Co-operative Housing Society (Regulation of the Promotion of construction, Sale, Management and Transfer) Act, 1963 recovery@rajarambapubank.org Contact No. 9561000830, **Public Notice** 9561000834. Deemed Conveyance Application No. 52 of 2021 The Vishal Nagar Suyodhan Co-operative Housing Society Ltd., Plot No.3, CTS No. 308/14, Valnai, Vishal Nagar, Mith Chowky, Marve Road, Malad (W), Mumbai- 400064. ...Applicant/s. Versus. 1) M/s. Rajasthan Builders / Kothari Group Private Ltd., Through its partners and landlords. 2) Kantilal Champaklal Kothari. 3) Ichrajadevi D/o Daulatram Gandhi. 4) Sunita D/o Mannohanchand Mehta. 5) Ramniklal Champaklal Kothari, Commerce House, Medows Street., Fort, Mumbai- 400001. ... Opponent/s and those, whose interests have been vested in the said property may submit their say at the time of hearing at the venue mentioned above. Failure to submit any say shall be presumed that nobody has any objection in this reard and fuber action will be take accordingly. Ltd. The said shares stands Chairman recorded in the name of Shr Shyamashish Ghoshal and Smt Rajarambapu Sah. Bank Ltd. Peth Bandana Ghoshal Tal.-Walwa. Dist.- Sangli Further please note that it no claims / objections are received within 15 days from the date of publication of this notice, it shall inv objection in this regard and further action will be taken accordingly Description of the Property, :be presumed that there is no claim over the same; the prospective buyer shall be free to consider to Sai Regency Co-Op. Housing Society Ltd. PRAKASH STEELAGE LIMITED **Claimed Area** 0 Indraprastha Park, Bhoir Nagar, Village, Mulund (E), Unilateral Deemed Conveyance of land situated at Vishal Nagar Suyodhan Co-op. Hsg. Soc. Ltd., Plot CIN: L27106MH1991PLC061595 buy the property and the Society shall be free to consider the application for transfer of the said No.3, C.T.S. No. 308/14, Village-Valnai admeasuring 1035.0 sq. meters (equal to 1259.9 sq. yards) situated at Valnai, Vishal Nagar, Mith Chowky, Marve Road, Malad (W), Mumbai- 400064 in favour Read. Office: 101. 1st Floor, Shatrunjay Apartment, 28 Taluka Kurla, Mumbai-400 081. Sindhi Lane, Nanubhai Desai Road, Mumbai - 400 004 DEEMED CONVEYANCE PUBLIC NOTICE of the Applicant Society. Email: cs@prakashsteelage.com Website:www.prakashsteelage.com Tel. No.: 022 66134500 Fax No.: 022 66134599 share certificate to the applicant member or their assigns and proceed with their applications. The hearing in the above case has been fixed **on 22/03/2021 at 2.00 p.m.** District Deputy Registrar, Co-operative Societies, Mumbai City (4). Bhandari Co-op.Bank building, 2nd floor, P. L. Kale Guruji Marg. Notice is hereby given that the above society has applied to this Office under under Section **NOTICE TO THE MEMBERS** 11 of Maharashtra Ownership Flats (Regulation of the promotion of construction sale Dadar (West), Mumbai-400028 NOTICE is hereby given that an Extraordinary General Meeting (EOGM) of the Member Date: 09-03-2021 nanagement & Transfer) Act, 1963 for declaration of Unilateral Deemed Conveyance of the Sd/-Gaurang C Jhaveri Advocate, Bombay High Court C/o. Office No 5, Ground Floor, of Prakash Steelage Limited (the Company) will be held on Monday, March 29, 2021 a Sd/following properties. The next hearing in this matter has been kept before me on 16/03/2021 at (Dr. Kishor Mande) 10:00 am (IST) through Video Conferencing (VC)/ Other Audio Visual Means (OAVM 3.30 p.m. at the office of this authority. District Deputy Registrar, Co-operative Societies, Mumbai City (4) compliance with the applicable provisions of Companies Act, 2013 and the rule (1) Mr. Ganesh Atmaram Bhoir (2) Mr. Ramesh Atmaram Bhoir (3) Mr. Suresh Armaram (Seal) made thereunder, read with General Circulars dated April 08, 2020, April 13,2020 and Bandookwala Building Bhòir above No. 1 to 3 having address at - Mankubai Niwas, Chaware Wadi, G. V. Scheme, Competent Authority, U/s 5A of the MOFA, 1963. British Hotel Lane, Nr BSE, Off M S Marg, Fort, Mumbai 40000 May 05, 2020 issued by the Ministry of Corporate Affairs (MCA Circulars) and Circula Mulund (E), Mumbai-81 (4) Šhri. Liladhar Bhaskar Bhoir (5) Shri. Sunil Bhaskar Bhoir (6) dated May 12, 2020 issued by the Securities and Exchange Board of India (SEBI Circula Shri. Rajan Bhaskar Bhoir (7) Shri. Kishore Bhaskar Bhoir - above No. 4 to 7 having address at Public Notice in Form XIII of MOFA (Rule 11(9) (e)) to transact the business set out in the Notice convening the EOGM viz. To authorize the Jaywant Bhoir Niwas, M. P. Road, Room No. 4, Gavanpada, Mulund (E), Mumbai-81 (8) Ketan Board of Directors of the Company to disinvest the entire 32,47,000 (32,47%) equit **District Deputy Registrar, Co-operative Societies,** Builders (9) Ajay Builders (10) Charudatta Developers & System Pvt. Ltd. Above No. 8 to 10 stake in Tubacex Prakash (India) Private Limited. Mumbai City (4) PUBLIC NOTICE

This Public Notice is published on the instructions and on behalf of my Clients 1) Mrs. Pradnya Pradip Wadivkar and) Mr. Pradip Prabhakar Wadivkar,

not traceable.

My Clients state that for the purpose o getting a Certified Copy of the above Agreement for Sale my Client Mrs. Pradnya

Pradip Wadivkar executed Declaration dated

20th December, 2005, my Client has therein

stated all the above facts of the execution o

Agreement for Sale dated 20th July, 1993 and

that the same was not traceable at the Office

of Sub-Registrar of Assurances and also

gave undertaking thereby to keep safe

harmless and indemnified the said Sub

Registrar of Assurances. The said

Declaration came to be registered before the

Sub-Registrar of Assurances at Borivali-

under Registration No. BDR/6/7970/2005 o

My Clients state that my Clients have

applied for a Education Loan Facility from a

Bank whereby they shall be Mortgaging the

said Flat as Collateral Security against the

My Clients state that the Bank has therefore i

absence of the Original Agreement for Sale to

safeguard their interest have instructed m

Clients to Publish a Newspaper Notice in Tw

Local Newspapers and hence, this Notice

Any person or persons claiming any righ

title or interest in the said Flat or any part

thereof by way of Sale, Gift, Lease

Inheritance, Exchange, Mortgage, Charge

Lien, Trust, Possession, Easemen

Attachment or Otherwise howsoever is/ar

hereby required to make the claim in writing

to the undersigned alongwith the

documentary evidence in support within 1

Days of publication of the said Notice hereof

failing which without any further reference to

such claim and the same, if any, shall be

Shop No. A/4, Ashok Nagar,

Vazira Naka, Borivali (West),

Yashashree A. Sutrale

Advocate High Court

Mumbai - 400092

onsidered as waived

26th December, 2005.

said Education Loan Facility.

Notice of the EOGM will be sent in electronic mode to the shareholders whose e-ma ids are registered with the Company or the Depository Participant(s). The aforesaid documents will be available on the website of the Company at www.prakashsteelage.com and on the website of the stock exchanges at www.bseindia.com and www.nseindia.com

having address at - 7, Ketki Apartment, GV Scheme Road No. 2, Mulund (E), Mumbai-81 (11) M/s. Šai Developers- Sai Krupa Enterprises, 102/B, Motivihar Co.Op. Hsg. Ltd. N.S.B. Road, Mulund (E), Mumbai-81 (12) Krish Associates- 006/B, Motivihar Co.Op. Hsg. Ltd. N.S.B. Road, Mulund (E), Mumbai-81 (13) Shubh Ashish Co.Op. Housing Soc. Ltd. Indraprastha Park, Bhoir Nagar, Mulund (E), Taluka Kurla, Mumbai-400 081 (14) Sagar Samrat Co.Op. Housing Soc.

Both R/o Flat No. 3A, 3" Floor, Paras Apartment, Vazira Naka, Borivali (West), Mumbai-400092. My Clients state that By Agreement for Sale dated 20" July, 1993, one "M/s. Paras Associates, as "the Builders", of the One	cs@prakashsteelage.com alongw of member (s) and self-attested so registering their email addresses; ;	ical mode are requested to send an email to vith necessary documents like Folio No., Name canned copy of PAN Card or Aadhaar card for	Ltd14-251, BF interests have the venue men	PT Colony, Tej been vested i itioned below n this regard a	as Nagar, Re in the said pr Failure to s and further a	eynold Rd., Ŵadala (operty may submit t	0,
Part", agreed to sell a Flat being Flat No. 3A, 3rd Floor, Paras Apartment, Vazira Naka,	Depository Participant for register Manner of remote e-voting and e- voting	ing the email addresses. g during the EOGM:		Indraprast	na Park, B	hoir Nagar, Villag la, Mumbai-400	je, Mulund (E),
Borivali (West), Mumbai - 400092, (hereinafter referred to as "the said Flat"), to	, , , , , , , , , , , , , , , , , , , ,	ty (remote e-voting) to its shareholders to cast	Survey No.	Hissa No.	Plot No.	C.T.S. No.	Claimed Area
one "Mrs. Pradnya Pradip Wadivkar", i.e. my Client No.1, as "the Flat Holder" of the Other Part", for the consideration and on terms and	is facility of voting through e-voting durin	e notice of the EOGM. Additionally, the Company ng the EOGM. The procedure for remote e-voting hareholders holding shares in electronic mode/ n the Notice of EOGM.	73 (Part)				2338.13 sq.mtr. and undevided Proportionate right in D.P. Road, 183 sq.mtr. & R.G. 933.3 sq.mtr.
conditions mentioned therein. The said Agreement for Sale came to be registered before the Sub-Registrar of Assurances at Bandra under Registration Serial No. 2748/1993. My Clients state that the Original Agreement	Place: Mumbai Date: March 07, 2021	For Prakash Steelage Limited Sd/- Prakash C. Kanugo Chairman & Managing Director DIN: 00286366	Ref.No. MUM/DDR Place : Konkan Bł Competent Author Room No. 201, C.I Navi Mumbai-400 Tel : 022-27574965	havan, rity & District Dy B.D. Belapur, 614. Date : 8/03	. Registrar /2021		Sd/- (Pratap Patil) Competent Authority & District Dy. Registrar Co.op.Societies (2), East Suburban Mumbai
for Sale came to be misplaced by the Office							
of Sub-Registrar of Assurances during it's transport from Pune to Mumbai and they took diligent Search of the same but the same was							FA (Rule 11(9) (e)) erative Societies.

Rule 11(9) (e)) District Deputy Registrar, Co-operative Societies, Mumbai City (4) Bhandari Co-op.Bank building, 2nd floor, P. L. Kale Guruji Marg, Dadar (West), Mumbai-400028.

No.DDR-4/Mumbai/ Deemed Conveyance/Notice/593/2021 Date: - 03/03/2021 Application u/s 11 of Maharashtra Ownership Flats (Regulation of the Promotion of construction, Sale, Management and Transfer) Act, 1963 **Public Notice**

Application No. 54 of 2021 Safi Co-operative Housing Society Ltd, Safi Apartment, Plot No.11, Near Sanska School,Kurar Village, Malad (E), Mumbai- 400097. ...Applicant. Versus. 1) M/s. Mohamed Safi & Compnay. Landlord & Builder. i). Shri. Mohamad Safir Yusuf Kazi. ii). Shri. Abdul Gaffar Yusuf Kazi. iii). Manjula Laxmidas Soni. 14, Pushpa Park, Daftari Road, Malad (East), Mumbai- 400064. 2) Shri. Sayed Abdul Hasan Landlords Through his legal heirs. a) Shri. Sayed Ahamd Abdul Hasan. b) Shri. Sayed Mohammad Husain Abdul Hasan. c) Shri. Sayed Aslam Andul Hasan d) Shri. Sayed Mohammad Iqbal Hasan. e) Shri. Sayed Mohammad Rafiq Abdul Hasan. f) Smt. Jubeda Jas Naik. g) Smt. Noorjaha Allauddin Chogale. h) Smt. Sayed Rukaya Abdul Hasun. i) Smt. Sayed Surayya Abdul Hasun. Las Known as Áddress Follows. 36/38, Old Bengalipura Street, Abdul Hasan Manzil Near Crowford Market, Mumbai- 400003. **3) Shri. Mohamad Safir Yusuf Kazi.** 14 Pushpa Park, Daftari Road, Malad (East), Mumbai- 400064. 4) Shri. Mohamad Hanif Haii Abdul Vora. Last Known Address as Follow :- Survey No. & Hissa No 28/4/B/2, Village :- Kurar, Malad, Near Sanskar School, Kurar Village, Malad (E) Mumbai- 400097. ...Opponents, and those, whose interests have been vested in the said property may submit their say at the time of hearing at the venue mentioned above. Failure to submit any say shall be presumed that nobody has any objection in this regard and further action will be taken accordingly.

Description of the Property, :-

Claimed Area

Unilateral conveyance in respect of the remained area of 149.3 sq. meters bearing CTS No.464 correspoding to Survey No. & Hissa No. 28/4/B/2, Village - Kurar, Malad, in the Registration District Of Mumbai City and Mumbai Suburban in favour of the Applicant Society.

he hearing is fixed on 25/03/2021 at 02:00 p.m.

Sd/-(Dr. Kishor Mande) District Deputy Registrar, Co-operative Societies, Mumbai City (4) Competent Authority, U/s 5A of the MOFA, 1963. Seal

Application u/s 11 of Maharashtra Ownership Flats (Regulation of the Promotion of construction, Sale, Management and Transfer) Act, 1963

Date: - 03/03/2021

Bhandari Co-op.Bank building, 2nd floor, P. L. Kale Guruji Marg, Dadar (West), Mumbai-400028.

No.DDR-4/Mumbai/ Deemed Conveyance/Notice/590/2021

Public Notice Application No. 53 of 2021

Trilok Krupa Darshan Co-Operative Housing Society Limited, Add: Building No.12 Ashish Complex, Chhatrapati Shivaji Cross Road no.4, Dahisar(e), Mumbai - 400068Applicants, VERSUS. 1) Goyal Properties & Estates Pvt Itd, Add: 408, Pragati Shopping Centre, Daftary road, Malad(e), Mumbai - 400 097. 2) Mr. Ashok Kumar Goyal (Director Of Goyal Properties & Estates Pvt Itd), Add: 408, Pragati Shopping Centre, Daftary road, Malad(e), Mumbai - 400 097. 3) M/s Omkar Enterprises, (Co Developers) Add: 19, LaxmiChhava, Babhai Naka, L. T. road, Borivali(w), Mumba 400092. 4) Paul Barthal Quinny, (Land Owners) 5) Nobert Louis Quinny, (Land Owners) 6) Bartholomew Quinny, (Land Owners) 7) Mrs. Bernadine Valerian @ Mrs. Benedin Mathayas, (Land Owners) 8) Philip Quinny, (Land Owners) 9) Mrs. Rita Francis Gigool @ Mrs. Rita Francis Jugal, (Land Owners) 10) John Lawrence Quinny, (Land Owners) 11) Ronald Cawsin Quinny and (Land Owners) 12) Abboit Anthony Quinny @ Aubut Anthony Quinny (Land Owners) Last Knowr Add of Opp nos. 4 to 12: - Čts no. 1424/A/1, Survey no. 334, Hissa no. 3(pt), Cts no. 1423, Survey no. 335, Hissa no. 5, Ashish Complex, Chhatrapati Shivaji Cross Road no.4, Dahisar(e), Mumbai - 400068, Village: Dahisar, Taluka: Mumbai Suburban District. **13) Kesari CHS Ltd**, (Layout Society) Add: Building no.2, Ashish Complex, Chhatrapati Shivaji Cross Road no.4, Dahisar (e), Mumbai - 400068. **14) Rishi Milan CHS Ltd**, (Layout Society) Add: Building no.3, Ashish Complex, Chhatrapati Shivaji Cross Road no.4. Dahisar (e), Mumbai - 400068. **15) Umiya Park CHS Ltd**, (Layout Society) Add: Building no.4 Abbie Complex, Chhatrapati Shivaji Cross Road no.4. Dahisar (e), Mumbai - 400068. **15) Umiya Park CHS Ltd**, (Layout Society) Add: Building no. 4, Ashish Complex, Chhatrapati Shivaji Cross Road no.4 Dahisar (e), Mumbai - 400068. 16) Ashish Neha CHS Ltd, (Layout Society) Add Building no.8, Ashish Complex, Chhatrapati Shivaji Cross Road no.4, Dahisar(e), Mumbai - 400068. 17) Om Ashish CHS Ltd @ Ashish Complex Building no.9 CHS Ltd. (Layout Society), Add:Building no.9, Ashish Complex, Chhatrapati Shivaji Cross Road no.4, Dahisar(e), Mumbai - 400068. 18) Ekta CHS Ltd, (Layout Society) Add: Building no.10, Ashish Complex, Chhatrapati Shivaji Cross Road no.4, Dahisar(e) Mumbai - 400068. **19) Ever United CHS Ltd**, (Layout Society) Add: Building no.11 Ashish Complex, Chhatrapati Shivaji Cross Road no.4, Dahisar(e), Mumbai - 400068 20) GarimaSadan CHS Ltd, (Layout Society) Add: Building no.13, Ashish Complex, Chhatrapati Shivaji Cross Road no.4, Dahisar(e), Mumbai - 400068. 21) ASHISH COMPLEX CHS ASSOCIATION Ltd, (Federation), Add: 10/A-302, Ekta, Ashish Complex, Chhatrapati Shivaji Cross Road no.4, Dahisar(e), Mumbai - 400068 Opponents and those, whose interests have been vested in the said property may submit their say at the time of hearing at the venue mentioned above. Failure to submit any say shall be presumed that nobody has any objection in this regard and further action will be taken accordingly.

Description of the Property, :-

Claimed Area

Unilateral conveyance of a plot of land admeasuring 5094.41 sqmtrs (i.e. Undivided Rights in Balance Plot Area) out of larger plot of land admeasuring 25431.60 sqmtrs or thereabouts bearing Survey no. 334, Hissa no. 3(pt) corresponding to CTS no. 1424/A/1 and 899.02 Sq.mts. (i.e. Undivided Share in R. G. Area) comprising total of [22,40 % of 1321.90 Sq.mts. comes to 296.11 Sq.mts. i.e. proportionate undivided rights in Survey no. 335, Hissa no. 5 corresponding to CTS no. 1423 having area admeasuring 1321.90 sqmtrs and 22.40 % of 2691.13 Sq.mts. comes to 602.91 Sq.mts. i.e. proportionate undivided rights in Survey no. 334, Hissa no. 3(pt) corresponding to CTS no. 1424/A/1] all lying and being situate at village Dahisar, Taluka Borivali, City Survey Office Borivali in R/North Ward of Mumbai Suburban District aggregate total comes to 5993.43 Sq.mts. plus 22.40 % of proportionate undivided rights in FSI advantage of Road Set-back Area admeasuring 177.27 Sq.mts. out of 791.30 Sq.mts. as per Latest Approved Plans alongwith building of Trilok Krupa Darshan Chs ltd in the locality known as Ashish Complex, Chhatrapati Shivaji Cross Road no.4, Dahisar (e), Mumbai - 400 068 in favour of the Applicant Society.

The hearing is fixed on 25/03/2021 at 02:00 p.m.

(Seal

Sd/-(Dr. Kishor Mande) District Deputy Registrar, Co-operative Societies, Mumbai City (4) Competent Authority, U/s 5A of the MOFA, 1963.

PUBLIC NOTICE

Public at large is hereby informed that, late Mr. Bhikaii Ramchandra Warang was owned of Flat No.104, having Built up area admeasuring 615 Sq.Ft., on the First Floor, in the building known as Siddhi Vinavak Tower CHSL., situated at Mahatma Phule Road, Near Bhoir Gymkhana, Dombivli (W), standing on the piece and parcel of N.A. land bearing New S.No.226/1 (Old S.No.233/1) lying, being, and situate at village Navagaon, Taluka Kalyan, District Thane, within the limits of Kalyan Dombivli Municipal Corporation, within Registration District Thane and Sub-District Kalyan, and was the member of Shree Siddhivinayak Tower CHSL., holding Share Certificate No.4, comprising of five shares of Rs.50/- each together valued at Rs.250/ pearing distinctive Nos.16 to 20 (both inclusive). Late Mr. Bhikaji Ramchandra Warang demised intestate on 04.05.2017, leaving behind im, his widow Smt. Deepali Bhikaji Warang, one son Mr. Ravindra Bhikaji Warang, and one daughter Miss. Apurwa Bhikaji Warang, as his only heirs and legal representatives in accordance with the law of ntestate succession under Hindu Succession Act, 1956. In accordance with the consent of all the legal heirs mentioned hereinabove, the Shree Siddhivinayak Tower CHSL, has transferred its membership in respec of the said flat to Smt. Deepali Bhikaji Warang. Now that Smt. Deepali Bhikaji Warang, Mr. Ravindra Bhikaji Warang & Miss. Apurwa Bhikaji Warang are desirous of transferring all their right, title and interest in the said flat to prospective purchaser. All persons having any right, title, claim or interest in respect of the said flat by way of sale. exchange, let, lease, license, mortgage, inheritance, gift, lien, charge, maintenance, possession or otherwise of whatsoever nature, are hereby called upon to notify the same to the undersigned in writing. alongwith documentary evidence, at the address mentioned below within 15 days from the date of publication hereof, failing which they shall be deemed to have given up such claims, if any.

B/63, Kasturi Plaza CHS. Manpada Road, Dombivli (E)

Sd/-Adv. A. A. Chitnis

गर्दी नियंत्रणासाठी

कठोर निर्बंध ? म्याप्रभः मुंबई, दि. ८, (प्रतिनिधी) : राज्यातील कोरोनाबधितांची संख्या वाटल्याने गर्दी कमी करण्यासाठी पुन्हा कठौर निबंध लागू करण्याचा विचार सरकारच्या पातळीव सुरू झाला आहे. पुढील तीन-चार दिवसातील रुग्णसंख्वेचा आढावा धेऊन त्या रष्टीने पावले उचलण्याचा निर्णय रविवारी राज्य मॅत्रिमंडळाच्या बैठकीत घेण्यात आला राज्यातील करोनाबाधितांची संख्या दिवसेंदिवस वाढत असल्याबद्दल मुख्वमंत्री उदय ताकरे यांच्या अध्यक्षतेखाली झालेल्या मंत्रिमंडळाच्या बैठकोत चिंता व्यक्त करण्यात आली. सोमवार ते शनिवार या सहा दिवसांमध्ये राज्यात ५३,५१६ नव्या रुग्णांचे निदान झाले. हाच कल कावम राहिल्यास सप्टेंबर-ऑक्टोबर महिन्यांप्रमाणे परिस्थिती निर्माण होऊ शकते. गेल्या तीन दिवसांमध्ये प्रतिदिन १० हजारांपेक्षा अधिक जणांना करोनाचा संसर्ग झाला. मुंबई, नागपूर, पुणे आणि औरंगाबाद या शहरांमध्ये रुग्णसंख्या मोठ्या प्रमाणावर वादन आहे. देशानील १८ हजार नव्या रुग्णांमध्ये महाराष्टातील १० हजारपिक्ष अधिक रुग्णांचा समावेश आहे, याकडे या बैठकीत लक्ष बेधण्यान आले. केंद्र सरकारनेही राज्यातील वाहत्या रुग्णसंख्येबद्दल चिंता व्यक्त करून पथक पाठविले असल्याची माहिती बैतकीत देण्यात आली. या पार्श्वभूमीवर कठोर पावले उचलण्यावर मंत्रिमंडळात चर्चा झाली. राज्यात पुन्हा टाळेबंदी लागू करणे योग्य होणार नाही-परंतु गर्दी रोखण्यासाठी काही तरी कठोर उपाय

योजण्याची मागणी सर्वच मंत्र्यांनी केली. सोमवारी अर्थसंकल्प सादर झाल्यावर बुधवारी विधिमंडळाच्या अर्थसंकल्पीय अधिवेशनाची सांगता होईल. त्यानंतरच निर्बंध लागू केले जाण्याची शक्यता आहे. शुक्रवारी राज्यात ८७,२२४ जणांच्या चाचण्वा करण्यात आल्या असता १०,१८७ जणांना संसर्ग झाल्याचे निष्पन्न झाले होते. हे प्रमाण ११.६८ टक्के होते. फे बुवारी महिन्यात एकु ण चाँचण्या आणि करोनाबाधितांचे प्रमाण पाच ते सहा टकके होते. २८ फे ब्रवारीपासन ते १० टववयपिक्षा अधिक झाले

समा, समारंभावर बंदीवी

. * गर्दी कशी टाळता येईल, या दृष्टीने उपाययोजना करण्यात येणार आहेत. सभा, समारंभांवर बंदी, हॉटेल्समधील गर्दी टाळणे विवाहांचा हंगाम असला तरी उपस्थितांची संख्या कमी करणे असे काही कठोर निबंध लाग केले जाण्याची शक्यता आहे. * सध्या

कोरोनावाधितांची संख्वा जास्त असलेल्या जिल्ह्यांमध्ये जिल्हाधिकाऱ्यांना निर्बध लागु करण्याचे अधिकार ग्यान आले आहेत हे निबंध आणखी कठोर केले जातील, असेही संकेत आहेत

राज्यात आणखी 99,989 जणांना संसर्भ राज्यात गेल्या २४ तासांत ११,१४१ नवे रुग्ण आढळले. उपचाराधीन रुग्णांची संख्या ९७ हजारांपेक्षा अधिक झाली. मुंबई, कल्याण-डोंबिवली, पुणे, नागपूर, औरंगाबाद या शहरांमधील रुग्णांच्या संख्येत वाढ झाली. गेले दोन दिवस राज्यात १० गरांपेक्षा जास्त रुग्णसंख्या नोंदविण्यात आली होती.

गेल्या २४ तासांत ही संख्या ११ हजारांवर गेली.

जाहीर सूचना णाहीर सुपना (जाहीर सुपना) प्रावस्थित का की रजी का का भारतिय को आप की रजी की का अनुवास के राजा की रजी की अनुवास का रजा है। राजार प्रात्म हे राज्ये, जाता का की की मांगलान्द्र की स्वारणको जा की की को जाता है। जा मांगल रजका सा वा स्वेरक रहे, जीकाली (ही), भुन्द राजा का स्वार्थ की स्वार्थ राजा का स्वार्थ की स्वार्थ राजा का स्वार्थ की स्वार्थ सा स्वार्थ का स्वार्थ की स्वार्थ सा स्वार्थ का स्वार्थ की स्वार्थ सा स्वार्थ की स्वार्थ की स्वार्थ पेण्यास किंवा तारण ठेवलेले बाही.

पाणार नाठ आणि दुख्य था प्रक्रिया कंपनी सुरू करेत. दिवाक: ०९ मार्च, २०२१ ठिकाम: मुंबई PUBLIC NOTICE PUBLIC NOTICE NOTICE SHEREY GVEN TO ALL concerned that OMKAR TRAVMBAK (MARNAR, aver, or Fish No. 04, Ground Floor, Bidg, No. C-17, Prema Shandinaga TC-LL, Scatch K, Shandi Nagar, Mira Road (E), Disi: Than-49107, having being purchased the said Fait from the Venofor (1) MS. SAUDHARN MARICLAW, Disk: RANZUMMAR P. Added 2011/1991, and the same was not ingistened but duy stamped under Certificate under section 41 of the Borthay Uniter as the Vendors (1) MS. Franknakel & Flageh PA Intere cannot be We needly rate out in or objections to the here to here is other cannot be objective to the here to here is other cannot of a scalar data with the state of the document and the state and interest of the document and the state of the scalar state of the scalar data with copies of such documents and other process in support the scalar process with the scalar of proceeding shows, the scalar has been and the scalar. Cannot on the Bit day of Mann 3021 with virtual SHANT INNAS CHS LTD, BLODING 1. MANN AND SCHS LTD, BLODING 1. Scalar control, St., Mann 3021 with virtual SHANT INNAS CHS LTD, BLODING 1. SCALAR CANNOT SCH AND SCH 2014 INNAS CHS LTD, BLODING 1. SHANT INNAS CHS LTD, BLODING 1. SHANT INNAS CHS LTD, BLODING 1. SCALAR CANNOT SCH AND SCH 2014 INNAS CHS LTD, BLODING 1. INNAS CHS LTD, BLODING 1 Whereas the Vendors (1) MS. SANDHAYA R. MAKHIJANI (2) MR. RAJKUMAR P. MAKHIJANI had

Additional R Additional (12) Biol RAMEUMAR P MAXHIANI had purchased the above meridrond Fail from the Vendort WAS. SHANTISTAR BUILDERSYDE agreement for Sale data (2005)1987, and WAS. SHANTISTAR BUILDERSYDE agreement for Sale data (2005)1987, and the same was registered in the office of the Sub-Registerr Three-ting and the same was registered in the office of the Sub-Registerr Three-the original registration model basing No-CHM-A211 On 2007/1980 of Agreement the original registration model basing No-CHM-A211 On 2007/1980 of Agreement for Sale dated S05/1987, pertaining to the sale fail and tracebole, healte of the CHM-A211 On 2007/1980 of Agreement Provide and the Sub-Registration of Sale dated S05/1987, pertaining to the sale fail and tracebole, healte of the Sub-RAMEAR AND New Nager Police Subtro to 2002 and the Sub-Registration registration of the Sub-Registration registration of the Sub-Registration pertaining to the sale fail and above mentioned of plan registration resolve pertaining to the sale fail and above mentioned of the sale above mentioned by the salor of the sale above mentioned by the s abendoned. Place: Mira Road (E), Thane. Date: 09-03-2021 Arty Ak

ce : Mira Road (E), Thane. Sd/-te : 09-03-2021 Adv. Akta M. Parikh Shop No. 22, 1st Floor, Crystal Plaza, Station Road, Mira Road (E), Dist. Thane - 401107.

जाहीर सूचना

प्राहरि सूरपना सर्वताप्रस्य नतरेख प्रदुप्त सुपल देण्या केले के, सावे आति (9) मुद्दारस उज्जुल्हामेड प्रदेन, (3) अल्लुल्हामेड कारत प्रदेन, हे प्रति क्र.२०२: दा भावता, इमाल क्र.१, प्रेन्न क्रिकेन, कार्तनिक, तिम तेते प्राहत क्रिया स्वार्थ प्रदेश का राजे के प्राहत क्रि.२१.२३.२१२२३ आ राजे मिल्ले क्रांसारस निर्फ पांठास्वयु करालामा ह.२१.२३.२१२३ आतं निवच्च कराल-१७ खर्डे सहे सीन, पाउँद किले, स्वारा डी, उर्देश ने २१२२ पाउँद किले, स्वारा डी, उर्देश ने वेशर पाउँद सिन, प्रदेश २४३२ - १२१२ पाउँद सिन, प्रदेश २४३० - २०१२ स्वार्य क्र.२१९२० - २०२० दिलांक ३०.२३.२०३, आंगति उत्ता राजे १७ येथे तियनिक सी, पाउँद किलेना क्री, अतिनी कार्युहो पाँती सल

गोलणेकृत होते. सतुई जिलेला और अग्निलो चारेपुरो पांसी सदा सतुई जिलेला और अग्निलो चार्यप्रकट्टन दिरांक २५.१२.२००४ रोजीचे जिल्ही कारतमानुबुगर खोरदी फेरो होतो आगि तो कारतमनुबार खारी पर्यप्रक न्वार्थने स्था दिरांक ३०.१२.२००४ आंगर्गत ठामे येथे तीरदमीकृत होते.

प्रदास ३०१ २.२.१७२३ अलाग ठाल भर भारतीक से मिंगे मंगल मांजमा निकें मंते प्रायुं सप्य मंगल मांजमा निकें मंते प्रया भारतमान के उत्तिम्बरा २.१९२३-२०२४ में कु मां देशक ३३.१९२२ २०१३-२०२४ में कु मां देशक ३३.१९२२ २०१३-२०२४ में कु मां देशक ३३.१९२४ मंत्रिय प्राय्ता अंग २५.१२.२०२४ रोतीचे विक्री अयातमा मां २५.१२.२०४४ रोतीचे विक्रिय उपाल मांज २५.१२.२०४४ रोतीचे विक्रिय उपाल मांज ३४. एक्सा १५.४९४ में मांजमा देशक १४.१९२४ १९४४ भारतीय प्राय्ता प्राय्त मांजमा ३४.१९४४ भारतीय प्राय्ता प्राय्ता प्राय्ता १४.१९४४ भारतीय प्राय्ता प्राय्ता १४.१९४४ भारतीय प्राय्ता प्राय्ता प्राय्ता १४.१९४४ भारतीय प्राय्ता प्राय्ता प्राय्ता प्राय्ता मांजमा भारतीय भारतीय प्राय्ता प्राय्ता प्राय्ता प्राय्ता

बाहुदे उपसेक प्रक्रियेनंतर माझे अशील बॅकेकडू गृडकर्ज येण्ययावत च्यवहार केला आहे. . असे की, माझे अत्रील वेथे नमुद करीत आहे की, रवानी कर्ज जन्म बॅकेकटे हस्तांतरीत केले सा, त्यांचा फल उत्तर वनकठ हतातालय कर आहे आणि विक्वी करारनामाची प्रथम वेश हरवले/गहाळ झालेवाचरा दाया व आशेप मागयिले आहे.

वास्तरी, सात्रा क्रांसी प्राप्ता य कायेड मार्गादिने ताउं मार्गादिने ताउं प्राप्ता संवेताचार्या व्यत्नेक किंवा नागराष्ट् प्रुष्टांक क्यादा १९८४ कार्गादे व्यक्ति सात्र प्राह्मा राज्या सात्रा प्रदार्श्यात् के विद्या प्रात्मा राज्या ताप्ता एततांवरा, किंवा, राज्या राज्या राज्या, सात्रात्रा दिक्या प्रांत्मा, राज्यांत्रीया, स्वतांत्रांत, किंवा, राज्यात्र प्रात्मा, स्वतांत्रांत, किंवा, राज्यात्र प्रात्मा राज्या सोकात्रा आपत्रांत प्रांत्मा राज्या सोकात्रा आपत्रांत्र किंवा किंवा क्यान्ता व्यातीय आपत्राक्ता स्वात्म स्वार्थ्य र प्रत्नियां देति स्वात् क्रिस्टल स्वान्न, स्वेराज्य तेष्ठ, सित्रा तेड (पुर्व), क्रिस्टल स्वान्न, स्वार्थ्या क्रांत्मा द्वीत्वा या व्याता क्रिस्टन स्वात्म स्वार्थ्य क्यान्या कर्त्वी स्वात् स्वापा द्वित्या स्वाति केंदेन आज क्या स्वात्ने व्यति स्वा ठिकाणः मिरा रोड (पुर्वे) दिनांक: ०९.०३.२०२९ मही/

एकता प्राप्तीख (वकील उच्च न्यावालय)

ागप्रमाणपत्र हरविल्याची सूचना देण्यात येत आहे की.

त्यावरीकत्यांत्री दुष्यम को पंथनीकटे अर्थ केला आहे

PUBLIC NOTICE

PUBLIC NOTICE

तत्थाताठा कपनावट आव कास । र कोगा व्यवतीकटे सदर मानमामाण सल्पाल किंवा सदर डोजसॅगर ठाउ होने त्यांच दावा पंरनीचे राजसे किं कत्त १३१, सार्थ्वी कर्वे नेट, कुंब्युं राजदर युच्चा प्रकाशन कारलेपानून अवारे, तुद्दांग कोमताली राजा विष

।, तप्रतार कामताला नाही आणि दाखन मा

गे पुरस्त देख्यात पत आतं का, तुत्त साक्षधती अध्युत्त रखूल व सिरीव युख पुलु त्युत्त पॉप्पा वासे अततेले क्रिडेडच अनुफू प्रॉक २००१ ९२ २०१९ १९४४ पालक कोलिओ क्र.गे०००० तर्गत ऊ.३२ जेकर्स पारक प्राति जाते-जर्मत रूपसे किंपा जाराल प्राते जाते-

PUBLIC NOTICE Sy this Notice, Public in general is informed the ate DR. CHULBUL PURSHOTTAM PAI nember of the Poorarn Vihar Building No. E-11 you or we access description in their name being the daughter, invived legal heirs and success red. The claims and objection ited from the ather legal heirs of the deceased for the transit e shares and interests in the ca the society in respect of the the society in respect of the solid flat, inserts / objectors may inform to undersing him period of 15 days from the date decation of this notices failing which is y will transfer the shares and interes capital property of the society belonging decased in the name of the claimarts readfor any claim or objection will not cidered. wft/a Pai the Notice is hereby given this, Mits. Seams Pal th overand of Plat No. AVGUNG2, Highland Tower CH Link, Lokhandweis, Towenship, Akurili Rosek Kandvil (E), Mumbal 400 101 expired on 1563 2019, Now Mr. Respit Pal, Mits. Antis Pi Ramchandhai & Mr. Rajeot Pal Intow claimed th shere of the decessed and epplied to the society

idered. Sd)-K.R. Tiwari (Advocate) Shop No. 14, A-S, Sector-7, Sharninagar, Mira Road, Dist. Thane - 401 107.

PUBLIC NOTICE

LOSS OF AGREEMENT Notice is hereby given that MR. VIPINCHANDRA SAKERCHAND SANGHVI & MR. SUKETU VIPIN SANGHVI (deceased) have lost/ isplaced, the under noted nts of their Flat No. 5 agree in Nand Smruti Co-operative using Society Ltd., situated a Plot No.15, Vallabh Baug Lane Extn. Ghatkopar (East), Mumbai - 400 077. 1. Original Agreement dated 11.11.1980 executed between M/S. EVEREST BUILDER [Sellers] and MR. VIKRAM KOTHARI & MR. DEEPAK KOTHARI [Purchasers]. 2. Original Agreement dated 07.01.1982 executed between MR. VIKRAM KOTHARI & MR. DEEPAK KOTHARI [Sellers and MR. BIPIN HIRU

MATHRAWALA & MRS. LAXMIBAL HIRL MATHRAWALA [Purchasers]. Police Compliant has been

lodged for the same on 26.02.2021. If any person has claim in, upon or against the aforesaid lost agreements of

PUBLIC NOTTICE NOTCE IS HEREBY GIVEN TO ALL concerned that SHAHBAZ AMJAD KHAR, owner of Shop No. 6, Ground Hins Bhayander Road, Mina Road (E), Dian, Tunne and Shah North Shah Hins Bhayander Road, Mina Road (E), Dian, Tunne and Shah North Shah Hins Bhayander Road, Mina Road (E), Dian, Tunne and Shah North Shah Hins Bhayander Road, Mina Road (E), UTTAM NAGURAM KAMBLI, Vido Ageementfor Sale dehot GB122017, and the same was registered in the office of the Sub-Registrar Three Vide document No. TINN1010384-2017 deau GB122017, Winsersas the Vendor UTTAM show mentioned Shop from the Vendor ROMIN HARISK MEHTA vide agreement for Sale dated S0122020, and the same was registered in the office of the Sub-Registrar Three Vide document No. TINN16-153-2004 molthil JAKSte Whensas the Vendor ROMINI JAKSte Whensas the Vendor ROMINI JAKSte To Sale dated S0122003, and the same was not registered To Sale dated S0122020, and the same was not registered S0122020, and the same was not registered. That the comerthan reason in belives that the office registered S0122020, and the same was not registered. That the comerthan reason in belives that the office registered S0122002, and the same was not registered. Flat No. 5 by way of sale, mortgage, charge, lease, or

license or claiming any right or interest for any reason or purpose of any nature, the

same may be submitted in writing along with requisite proof within 14(Fourteen) day om the date of the publication of this public notice to Advocat of this public notice to Advocate Krupa Sanghani, having address at Flat No.13, Jayshilpam, 22, Sanghani Estate, Garden Lane, Ghatkopar (West), Mumbai –

beach rais dombarts to copies of my linger Poles Station under Loar tereport to 1500-2021, detect06032021. THEREFORE AVY MEMBER OF PUBLIC or the Comparise Authority appointed under the Nathanasthat Sampa Act, 1968, having cólection aguint the addiministic and the said above agreement for Said attes 301/22008, and agreement attes 400086, failing which the right of third parties or members of the Public will not be entertained by my clients and considered as if there is no

claim of any person of any nature against the said property. sal. ADVOCATE KRUPA SANGHAN

is:09-03-2021 Sdi-Adv. Akta M. Parikh Shop No. 22, 1st Floor, Crystal Plazo, Stebon Road, Mira Road (E), Dist. Thane - 401107. प्रभात टेक्नॉलॉजिस (इंडिया) लिमिटेड p-

abanconed Place: Mira Road (E), Thane. Date: 09-03-2021

प्रभाव Carlettinini (ईडाव) (भाविदेव) (द्रांची प्रकार केंग्रेस्ट (ईडाव) (भाविदेव) मोडायणतः (इडाव) (भाविदेव) मोडायणतः (इडाव) (भाविदेव) मोडायणतः (इडाव) (माठा (इडाव) (भाविदेव) मोडायातः (इडाव) (माठा (इडाव) (भाविदेव) मेडायात् (इडाव) (माठा (इडाव) (माठा (इडाव)) मेडायात् (इडाव) (माठा (माठा (इडाव))) मेडायात् (इडाव) (माठा (माठा (इडाव))) मेडायात् (इडाव) (माठा (माठा (इडाव))) मेडायात् (इडाव) (माठा (माठा (माठा (माठा (माठा (माठा)))) मेडा (माठा (माठा (माठा (माठा (माठा (माठा)))) मेडा (माठा (माठा (माठा (माठा (माठा (माठा (माठा (माठा (माठा (माठा)))))) मेडा (माठा (मा

गर्ने कावड २०१३ व्या कारल १४८ संख्याचिता कंपनी (व्यवस्थापन व प्रशासर

भा उंगला स्वीता. भारते केवला स्वीता , स्वाता हिंदर राज्यां पिता क्रेसली (वायासान व प्रायमान) अधिनिका, २४ ६८ भे निष्ठ २८, युवीलिया अप्रे प्राय केवलि (निरादी वालिनिया भारते किर्वात किर्माता निरादीयार)) निर्णुका उठार भे निष्ठ २, युवीलिया भारते प्राय केवलि (निरादी वालिनिया भारते क्रिये विकास किर्माता निरादीयार)) निर्णुका उठार भे निष्ठ २, युवीलिया में प्राय केवलि प्राय क्रिये किर्माता केवलि कालि अपर्वत निष्ठ वाल्याता का रिष्टार्थी प्रति क्रावर्थां का निर्णुका प्राय किर्मित - विवीद प्रायी प्रायमा कि स्वाता किर्मात किर्मार्थी प्रति क्रावर्थिया किर्माता किर्मित केवलि किर्माता किर्मात क्रिये स्वाता कर स्वाता क्रांत केवलि प्रायमित क्रांत केवलि क्रांतिया केवलि किर्माता किर्मात किर्मात स्वार प्राय काल्या कार्या केवली प्राय केवलि प्राय केवलि किर्माता किर्मात केवलि किर्माता किर्मात - विविध प्राय स्वाता कर स्वाता क्रांत केवली क्रांत कर स्वाता केवलि किर्माता केवलि किर्माता किर्मात - विविध केवलि केवलि स्वाता कर स्वाता क्रांत केवला क्राय केवलि क्राय केवले स्वाता कर स्वाता केवलि (क्राय क्राय क्राय केवला कर्का) निर्व - विवर्धिय वालिया केवलि क्राय केवलि केवला करते. निर्वत स्वाती राय वाल्ये क्राय के स्वाती क्राय केवलि केवला करते. नोती दार केवली क्राय क्रायम क्राय केवलि क्रायन करते. ता स्वाता क्रायम क्रायम केवलि स्वाता केवला केवली किराय क्रायम क्रायमित प्राय क्राय कार्या कार्याय केवलि प्राय केवलि क्रायम क्रायम केवलि क्रायम क्रायम क्रायम केवलादीक आपर क्रायम क्रायम क्रायम केवली केवलिक व्रायम केवलि क्रायम क्रायम कार्या क्रायम क्रायम क्रायम क्रायम केवली केवला क्रायम क्रायम क्रायम क्रायम कारायक्री या क्रायम क्राय कारायक्र क्रायम क्रायम क्रायम केवला क्रायम क्रायम क्रायम क्रायम क्रायम क्रायम क्रायम क्रायम क्राय क्रायक्र क्रायम क्रायक्र क्रायम क्रायम क्रायम केवलि क्रायम क्रायम क्रायम क्रायम क्रायम क्रायम क्रायम क्रायम क्राय क्रायम क्रायम

तमत प्राप्त /तक्रारीकरिता सदस्यांगी खालील प्रांपर्क तपरिताची चोंद प्याप्त

48200.	
	प्रचान टेक्नॉलॉकिस (इंडिया) लिथिटेडकरि
	बाही /
डिकरणः भूवई	आरथा को
विमांक: oc. 03. २०२१	कंपनी सचिव प सक्षम अधिक

	प्रभात टेक्नॉलॉजिस (इंडिया) सिथिटेडकरिता
डिकार	वाही/— आरधा फोपा
হিনাৰ	कंपनी सचिव व सक्षय अधिकारी
2	

PUBLIC NOTICE

Dated 9" day of March 2021

(RKU NO (EL DO

f a lier

lín at 1

Pla Dal

NO Tr

PUBLIC NOTICE Notice is hereby given that the following premises with address given below has come to the society for transfer from Mohammed Noorddin Shaikh (Deceased), Mohammad Sohel Shaikh, Usam Noorddin Shaikh (Deceased), Mohammad Sohel Shaikh, Usam Noorddin Shaikh (Deceased), Mohammad Sohel Shaikh, at any maaner may lodge the same with the socretary of the said society within 15 days from the date of Publication. If no Chaim Objection is received within the period mentioned, the society will proceed further and transfer the said premises to the society will proceed further and transfer the said premises to the society will proceed further and Malad (Weith), Munbai. 40006⁴. Secretary

Secretary: Pawan Sat Co-op. Hsg. Soc. Ltd., Pawan Baug, Near Chincholi Phatal Malad (W), Mumbai - 400064

					_
		PU	BLIC NOT	ICE	
ding sgist m. S A st), nd i	an original Rec ation No. P - 220 dbha Anant Anvel 2, Dahisar Shri Mumbal - 400 068	eipt dab - 1980) b ar (Appl) Avadhoo I (said C	ed 25-08-1980 setween Ms. R sant) of Flat No ot CHS Ltd., C triginal Docume	ayant Shashikumar & Agreement date toxi Constructions (D. 16, 3rd Floor, "C" V Ishatrapati Shivaji F ints; which is lost/mis ing the claim on the	d 21-08-198 evelopers} an Ving, Buildin Road, Dahisa pisced and no
01		cuments n	ray file such clair	r any Body Corporate It ms or objections if any, v	
				Mis Bhogale	& Associated
				Advocates & Leo	pal Consultants
	2th Floor, Maa Shai (East), Mumbal -40		er Udayachal CH	IS Ltd., Ashokvan, Shi	v Vallabh Rosd
uture				in the stipulated period, or rights having been w	
DE: 8	lumbai				Sd
8: 0 1	MARCH, 2021			M/s. Bhogal	e & Associate
			NOTICE		
OTIC	E is hereby give	en that th	ne certificate(:	s) for the The Bom	bay Burmah
				as/have been lost	
				e has/have been a	ppied to the
mp	any to issue dup	licate sh	are certificate	(s).	
				the said securities	
				d Office within 15 d	
	istimation	iy will pr	aceed to issu	e duplicate certifica	ite(s) withou
lio	Name(s) of	Face	Certificate	Distinctive	No. of
1	holder(s)	value	No.(s)	Nos.	Securities
149	Anand G. Puranik	2-	4422	#3588181-#3586580	400
-			Na	me & Address of st	hareholder(s
					d G. Puranik
			1401/1402	Melody, Kesar Har	mony CHS.
ice	Mumbai		Plo	t No.11, 12, Sector	-6, Kharghar

Raigarh, Maharashtra-41021

JUPITER INFOMEDIA LIMITED

CIN NO: L22200MH2005PLC152387 336, Laxmi Piaza, Laxmi industrial Estate, New Link Road, Andheri - West, Mumbai - 400053. Website : www.jupiterinformedia.com I Tel. : 022 - 42681743 NOTICE OF POSTAL BALLOT AND REMOTE E-VOTING INFORMATION Notice to an excerned device of the activity o approvel of the shareholders of Appler informed Linking (The compary) Brough post back (Thesis Bail Chard is about northing (a voltary)). The Proteit Bail Chard is advected to the shareholder of the protein can be developed and the int. "Thesis inverse voltage match compary (brough can be developed and the int. "Thesis inverse voltage match com" or <u>https</u> www.pathetinformed candidational Bails Molder. March 2021 pdf The 4-voltage path dott 20 pm. During the period hatherolders of the Company, may and therity of exclanations, you may write to the Fraquenty Aster Questions (Frace), and endo in card of any questions, you may write to the Fraquenty Aster Questions (Frace), members and e-volting user manual for members available at the Downades sections. This (Diverse) and card com contact NSOL at evoling (Sred) on or on 1800 1020 9 and 1800 224430. S For Jupiter Informedia Limit Umdeh Mo Chairman & Managing Direct ale : 8ª March, 2021 Place कंतल ग्रेनाईटस प्रायकोट लिमिटेड माः १९–अंकरेज, तक्तमञ्चल, ७ वच्छा गांधी रोड, नकिंग गावदेवी, माणा-पुर४२९८०णमाम्बर६८८वीटीनी०४९६६९, प्रा:०२२-२३८०६७ ≸–मेण्ल: info@kuntakyranites.com मनुमा क. आरप्टरसी - ११ (भने (भन्म) अर्जिक, २०१३ के जिस २ जुमा) केलेके संविध्यक स्वातंत्र वाज्याइन साविकाद राज्यात कारकार्या स्वार्थ्य प्रधान कार्यात्र प्राण्यात्र प्राण्यात्र महार्थित सुरचना के ज्यावर, वीचा सावकार, अपिका वे प्रधान आर्था के ज्यावर, वीचा सावकार, अपिका केला (भवाग) अर्जी तिया २० वे तिया (भे वे प्रधान) (भे तामि संजी (भवाग) अर्जी तिया २० वे तिया (भे वेषु ८२) आराम कार्यात् केला से स्वार्थ्य, व्यावर, वार्य्यात, प्राण्या, सावकार कार्या के देवु (२२) आराम साविताय कार्या के देवु प्रयां, आराम, से २०११ तेनी स संसातमा कार्या के देवु प्रयां, आराम, से २०११ तेनी स संसातमा कार्या के देवु प्रयां, आराम, से २०११ तेनी स्वात्य संसातमा कार्या के देवु प्रयां, आराम, से २०११ तेनी स्वात्य संसातमा कार्या के देवु प्रयां, आराम, से २०११ तेनी स्वात्य स्वात्य के स्वात्य के स्वात्य से अर्जी स्वाया; २०११ का स्वज्य (३) स्वात्य अर्थ नमुना क्र.आयएनसी-२६ এনাননো কানী কাৰণা চিকাই কাৰণ ৰ কিনামৰ কাম বন্ধু উঠাৰণা মনিবালন্দ্ৰী কাৰি। নি, বঠাৰ কি কাম বিজ্ঞানজনো কাৰণ বা চাম কাৰ্ম্যান কৰা কৰিব কা কৰা বুকাৰা কামাতা জাইগালো ২০ চিনামক কা উঠিম মাৰামক, মন্দিমৰ ঠাৰ, মুম্বইয়ে, 1০০, ধৰা মাৰাম, মাৰি মুখাৰ, মুখাৰ-২০০০০ৰ, মান্দ্ৰায় বা কাৰ্বাচনা হয়, কাৰা মুকা মুকা কৰিবা কাৰজিন প্ৰাৰ্গ বন্ধুৰা নাম্বাৰা বিশিক্ষা কৰেলৈ মা মাৰামা, व्हाःस् आवव्हाः गर्वव महेल ग संज्ञान जीआवत्तः००१६६१ त्वनांबर १८.१७.२१२२ छिम्राणः मुंबई प्रकाश स्टिलेज लिमिटेड 0

सीआपपरः एक२५१०६ एकएक१९३ विषेक्षती०६१-६५ कार्याक्षयः १०९, राग मन्ता, कांत्रेय आग्ठेंद, २०, सिंधे ते, वनुमाई देशां कुंग्राने-१०००, रु.१३२-२१३२-११ @prakashalealage.com, वेष्यसर्व्यः www.prakashalealage.com নাঁরণ

सदस्यांना सूचना

स्टर्स्यांना सुरत्यांना सुरत्यां भे पुष्त हेला के अहां की, जावा दिवेल विदिष्ठ (काली प्रान प्राप्त करीं का (इंकेक्वेप्र) होपाल, १९ पाई, २३२१ रेपी स. १, ७, ४९८, जंभी जयाद २३२३ रुप तुर्खु कालीपा प्राप्तिक प्रक्रिया के स्ट्रिस्ट (इ. ८९९), २३२२, इ. वेल्ड्र, २३२० स्ट्र पुरुष्ठ कालीपा प्राप्तक प्रक्रिया के स्ट्रिस्ट (इ. ८९९), २३२२, १९९, २३२, १९९, २३, ३३, २३२, (एसमीर परिपर्क), आणि भारतीय प्रतिष्ठ में द्विपि र वित्तिव संड्रा की परिप्र काली दिवास १२३, २३, २३२ ते सेचे परिप्तक्राप्त के क्रिसेट स्ट्राप्त स्ट्राप्त स्ट्र व्यक्त विद्या प्रत्य स्ट्राप्त स्ट्राप्त अन्तिम् प्रत्य क्रिक्ट के स्ट्राप्त स्ट्राप्त स्ट्राप्त व्यक्त प्रत्य स्थान स्ट्राप्त के प्रत्य स्ट्राप्त अनुसार स्ट्राप्त विद्यालय स्ट्रपत्र (क्रेट्र) भागा विद्यालय, क्रस्या के प्रत्य स्ट्रोपाल संड्राय्य व्यक्तिम् स्ट्रे विद्य विद्याल करते. वर्षात रचुवा चित्र

गपारकांचे ई-सेल कंसनी किंवा ठेवीदा जेवान -बंचीएमची सूचना ज्या धारपारकांचे ई-सेल कंसनी किंग्रा ठेवी शुत स्वरूपने पाठकिम्पात पेतील, उसरोक्त दस्तावेज कंसनैच्या चि स्टॉक एव्याचेंग्रेसच्या www.boeindia.com व w लव्य आहेत. ई-मेल चेंद्र व अदाव्यापक करण्याची पहुत: वेधुत स्वरूपने प्रापि स्टॉक

सरण्य आता. ३- मान चंद म अदायावान करण्याचा पहुंता. , मारविकंड स्वरूपक भागधारमा अस्याच्या सरस्यांच विनेती आहे लांगी आवश्यक दल्तानेत्र ज संदेशिक्षी अमेध, भागधारचाने त्रय आपि वैज्ञादे व आपारकार्डवी त्य-साक्षांकीत-रू प्रतासत्व्ये आयस्यरू तत्वरील त्यांचे ई-मेल नोंट्र कल्प्यासारी CS@prakashsbelage.cc

पर माठमायः . डिप्रेंट स्वरूपल भागपारणा असगाऱ्या सदस्यांना विलेती सारमागीदारजाडे संपर्क जरून रोद वरावेत. ओबीएम दरम्यान प्रिमेट ई-बॉटिंग च ई-बॉटिंगची चह्नत: न्य सदस्यांना विनंती आहे त्यांनी त्यांचे ई-मेल संबंधित देवी

णः सुंबई सः ०७.०३.२०२१

गणगाण्याः इंजनीव द्वानी गंग्रे 5 - बॉरिंग ६ - बॉरिंग प दुता. अंजनीव देवनीयाः पुत्पेत गंग्रे 5 - बॉरिंग व्यक्ति आग्वाडी भागाणांवांन ई- मॉरिंग युत्तित (मिये ई -बॉरिंग) दिलेगे आते. निये ई- नोरिंग आणि इंजोडीएमय्ये इंजोडीएम् यूचेन दिलेनी आते. पुष्कु स्वरुगत / व्यनीय स्वरूपत प्राप्तकारा आते त्यांज्यवांत्री इंजीवाय यूचेन दिलेनी आते. प्राप्ता दिल्डेज क्रिक्टेडपर्शना क्रांग

ग्रमा ग्रयनाल सी. कन्तुगी	केलेल्य प्रकर्म मुख्यर विश्वास
अध्यक्ष च श्वयस्थापकीय संचालक डीआवएन:००२८६३६६	ल्पण : सन्द

मुंबई लक्षदीप

8

जाहीर निवेदन बावः क्षी. अर्थित भोहन मायदु पत्ता: दुकान इ.२/३. राममार लेवा संघ कलक रोड. सायन, मुंबई-२२.

ना, आ. माहन मक्तावचलम नावडु ओ. अरविंद मोहन नावडु जाहीर नि नावडु वांचे विनांक १३/१२/२०२	and and and and and	आ, साह्य संपत्तावचलन
अस्रतेले अधिकत तकान क्रमांक अ	७ रोजी दु:खर निघन १-ई-१८५ (विजीविनम	झाले असून त्यांचे नाव एक ज्लोव्वे। चे पाधिकार
असलैले अधिकृत दुकान क्रमांक ३ एज मी कायूदेशीर वारस उरल अ	सल्यामुळे चारस महणून	न माझे नावे होण्यासाठी
उपनियंत्रक शिधाचाटप ई परिमंडठ इत्कल असल्पास सुधना प्रसिद्ध झार	ह सावन याचकड अज	सादर कलला आह, यास
शिधाचाटप ई परिमंडठठ यांचे हरक	तीबहल लेखी कळवावे.	अन्यथा कृणाचेही हरकत
नाही असे समजण्यात येईल, याची		सही/-
विनांक: ०९/०३/२०२१	6	गी. अरर्थिव मोहन नायडु
जाहि	र नोटी स	19 T
मनीषा गार्डन सहकारी गृहनिर्माण संस्थ	रेपी ध्वी वार्षिक सर्वसाधा	रण सभा दि. १४ मार्च २०२१
(रविवार) रोजी वेळ सकाळी. १०.०० २८/०२/२०२१ रोजीच्या सूचनेव्वारे सर्व	सभासवांना बेण्यात आल	त आहे.
वा विषयी, वि : ०१/०३/२०२१ रोजी रोजीच्या आदेशांच्या अनुषंगाले, व्यव	प्राप्त झालेल्या, शासनाच स्थापन संप्रितीच्या वि. ०	या वि. २४ फेब्रुवारी २०२१ २ प्रार्थ २०२१ च्या बैतकीन
चर्चा करून खालील निर्णय घेण्यात आत	3	
१) हवी वार्षिक सर्वसाधारण समा आ किंवा OAVM (Other Audio Visi	वोजित करण्यासाठी VC ual Meana) या पैळी	(Video Conferencing) एकावे माहवम वापरले
जाईल.(म्हणजेच झुम अँप). २) सभेचा वि. १४ मार्च २०२१ (रविवार		C areasan
सूचना हि. २८/०२/२०२१ रोजी सभासव	iना देण्यात आलेली आहे)	
३) सभासवांजी आपला ई-मेल ID आं संस्थेत्या ई-मेल manishagard		
याचा. जेणेकरून, ध्व्या वार्षिक सर्वसा सभारखांना वॉट्सजेंप किंवा ई-मेल क	धारण समित उपस्थित शह	ण्याकरिता लागणारी लिंक
सद्विका समासदाचे ई-प्रेल आ	रही बॉट्साउंप मोबाइल ह	मांक (सोरायदी वार्षिक पसारी)
	contraction could de	unit)
४) वि. २८/०२/२०२१च्या सूचनेङ्वारे मसुदा पाठलण्यात आलेला आहे. सदर म	सर्व समासवांजा ६व्या व रसद्यात कोणताही बढल क	र्षिक सर्वसाधारण समेचा जण्यात आलेला नाडी.
23811 (SA 5 CA)	र स्वतस्थाप मा.स	न सामताच्या आद्रशानुसार
डिकाल. हुलुंह(पूर्व) दि. ०२ मार्च २०२१	(विजीव ग	गयकवाड) (रवित्र आधव)
SHRIRAM City	श्रीराम सित	टी युनियन
NONEY WHEN YOU KEED IT MOST	फायनान्स	लिमिटेड
নারগান্ধার কার্যালয়; কার্যালয় (ह.१२३, अगण्या नावफन ह	500002-3000 .55
मुख्य कार्यालयः लेफल ३, योवजाई त यदि (पूर्व), मुंबई-४००४	५१. वेवसाईट: www.sh	riramoly in
ज्या वर्षी, खालील स्वरशतिवर्ती हे लिखा	क ताचा सूचन विषयेल केंद्र किवटका	দ রাজ দিসালিয়েল এটাস্স
ऑन्ड एनकोर्समेन्ट ऑफ सिवयुरिटी इटरेर सुनिवन फासकाला लिमिटेड (एससीपुट्प (एनकोर्समेन्ट) करुस, २००२ च्या वि	ट ऑगट २००२ (सहर का ६) यो यहिष्ठान अधिकार	बदा) अंतर्गत औराम सिटी जोत आणि विकासि जोता
(एनकोर्वामेट) करवा, २००२ ज्या कि	, न	१३(१२) अण्यसे असलेल्या
अधिकाराः अंतर्गत सहर मागणी सूचनेत तथशिरतानुसार फर्जदार ग्वंश मागणी सूच	ना वितरीत केली होती. क	जेंदार जोगी का नमूद फेलेली
रक्तक भरण्यास असमर्थ ठरले असून व आहे की, श्रीवाम सिटी बुनिवन फावन	म्स लिमिटेड में प्राधिकर 3	प्रथिकारी असलेल्या खालौल
म्लाक्षीकल्यांची सिंक्युरीटायझेलन अंग्ड वि ऑफ सिक्युटिटी इंटरेस्ट ऑस्ट २००२ (सर	কমহুম্মান আঁম জিনান্মিয	ल अंसेटम् अन्ड एनकोर्सपेन्ट
इंटोस्ट (एनसेसीमेन्ट) कल्स, २००२ च्या मालमलेचा सांकेतिक ताचा ०३ मार्च,	निवास ८ अनवये त्यांना प्राय	त अस्त्रभेल्या अधिकारा असर्गत
कर्तदार आणि सर्वसामान्य जनतेस मेथे	सामध करण्यात येत आहे	की, वर ममुद्र मालमत्तेसह
कोजशाही व्यवहार करू को आणि मालम ओराम सिटी युनियन फायनान्स लिमि		ला उसल्यास भर नमुद राहम
कर्त्रदाराचे नाव य पत्ता	मागमी सूचना	मालमत्तेचे वर्णन
१. मे. ए.एस. इलेक्ट्रॉनिक्स (मालक	२६ आंगस्ट, २०२०	मालमताः दुकाव अ.१.
औ. सुलताव सिंग) युकान झ. १, इमारत झ. २५,	रोजीचे लगाद दिझेटल राहम प्रदान मोवनीनुसार	वोत्रफळ १२१.१३ ची.फु. कार्पेट, इमारत क्र.२५,
ओशिवरा, लिंकवे कोहीसोलि.,	देव राजम ठ.	ओं शिवरा, लिंकवे
सीटीएस क. १, माथ ओफियरा, ता. अंग्रेरी (प.), मुंबई-४०००५३	३९,६१,१८३/- (श्पते एकोपन्वाळील लाख	(प.), मुंबई-४०००५२,
बुसरा पणाः स्त्रोली क्र.३, २स	एकस्ट इन्द्रा एकसे	जमीन सीटीएस क्र.१, पान जोनिका, ता. अंधेर, नॉट्मी
मजला, इमारत क्र. २६,, १४वी लेव, कामाठीपुल, मुंधई सेन्ट्रल, मुंधई-	आग्रेगी कत्तः) पुढील म्याज व शुल्क	जिल्हा मुंखें आणि चतुसिमा।
४००००८. २. ओपली सोहब कल्पर	करारनामा क्रमांक सीडीवीडीआएटीग्स	उत्तरेस-निरनार व्योहीसोलि. 1
पणाः खोली क्र. ३, २रा मजला,	\$\$06503989	दक्तिगोस-इंगफन टॅक्स
इमारत झ. २६, १४वी लेग, जामाठीपुरा, मुंबई सेन्ट्रल, मुंबई		ऑफिसर्स क्यॉरेसं; पुर्वेस–लिफ रोड;
३००००८ बुसस पताः हुकान झ. १, इमाल		पहितेलेस-एकसीपीएस इंटरन्डॉनल स्कूल
क्र.१५, ओस्टियस, लिंकवे		
कोहीसोलि ., सीटीएस ज्ञ. १, गाव ओलियरा, गा. अंधेरी (प.), मुंबई-		
xoodią.		
कर्जदारांचे लक्ष वेधण्यात येत आहे	की, प्रतिभूत मालमता स	गेळवून घेण्यासाठी उपलब्ध ट आहे.
केलेमंटर्भात कावगापदा कलम १३ चे		
वेळेसंदर्भात कावद्याच्या कलम १३ वे	ं उपफलम (८) भी तरकू	/- प्राधिकृत अधिकारी
वेळेसंदर्शत कावधाच्या कलम १३ वे टिकाणः सुंबई दिनांक : ०९.०३.२०२१	। उपफलम (८) थी तरकू सही	/- प्राधिकृत अधिकारी वेषन फावनान्स लिमिटेड
वेळसंदर्भात कावद्याच्या कलम ९३ वे तिकाणः मुंबई दिनांकः ०९.०३.२०२१ क	ा उपफलम (८) थी तरह् सहो औराम सिटी पुनि सली अभिकारी	नेवन फावनान्स लिमिटेड
वेळसंदर्भात कावद्याच्या कलम ९३ वे तिकाणः मुंबई दिनांकः ०९.०३.२०२१ क	ा उपफलम (८) थी तरह् सहो औराम सिटी पुनि सली अभिकारी	नेवन फावनान्स लिमिटेड
चेळेसंदर्भात काव्याच्या कलम १३ पे विकाण: चुंबई दिनांक: ०९.०३.२०२१ (पाराषु राज्यते संसा अभिविक चही काया कर करने संसा अभिविक मुरुष कार्याल, फियाने आप केरी करना कर	। उपजलम (८) थी तरक् सहो औराम सिटी युनि पुत्ती अभिकारी १९४१ कागए बाकारी मेला दब्बरी मेंड ति. (बेस्ट्रूब मे ८ अर्थ ना स्पर्जे. लेटवाल	वेषन फायनान्स लिमिटेड विषय, १९९१ जनवे) ड) इ. इ.जर्म गेट (प.), गलबन-
चेळेसंदर्भात काल्याच्या कलन १३ चे डिकारण: सुंबई डितारंक: ०९.०३.२०२१ (पारण्ड राज्यते संसा अगिलिक सुरुव कार्याल, विकारी साम केंग्रास्क सुरुव कार्याल, विकारी साम केंग्रास्क १३१९४१. सुरुवपी अ.१८२४४	उपकलम (८) भी तरतू सही औराम सिदी पुनि बुतनी अभिकारी र, भर बठताड़ बातबारी कंसा र, कर्म्द्र मा एस. हे. स्टेरका न, बार एस. हे. स्टेरका न, बार एस. हे. स्टेरका	नेषन फायनान्स लिमिटेड निषम, १९११ जनने) इ. इनई गेट (प.), सलसन- १०११६४४२८४
खेळतेहार्वत कारणाच्या करतन १३ थे ठिकारणः पुंषई दिनाणः १९.०३.२०२१ (पराणः सरकार्त राज्य भाषित्व प्राणः प्राणः स्वरूपते प्राणः प्राणः प्राण्यं क्रा.९२१ रार्ध्यः, प्राप्यं क्र.९२१ व्यानी करिकार्य्य सं प्राप्यं के.९२१	उपकलम् (८) भी तरक् सही श्रीराम सिटी युनि तुनी अभिकारी तभा कालाइ काकारी जेल्पा कुमरी में ति (विक्रुप्ट में) र के ति (विक्रुप्ट में)	नेकन फायनान्स लिमिटेड निकन, १९९१ जनवं) क) इ. तबरंगेट (य.), पालग्रन ९७१९४९२८ प्रार कर्जन वाहिन जन्तरेन्सा १९२० कर्जन वाहिन जन्तरेन्सा १९२० कर्जन वाहिन जन्तरेन्सा
खेळेलेहांची कारणाऱ्या कालम १३ थे विकास: दुर्ख्य दिसांक: १९,०३,२०२१ (पाराषु कारको संभा कोर्नेस्क पुरुष धार्वत, प्रस्ता का किस्त पुरुष धार्वत, प्रस्ता का किस्त (११४१, पुरुषी क्र.с२४० विकास: ब्रह्म कार्जन का की रिवेश विकास: ब्रह्म कार्जन का की रिवेश	उपकलम् (८) भी तरतु सरी औराम सिटी पुरि युत्ती वर्षिकारी र १ च कारा कार्याचे जेल्पा कार्ड के सि (केस्ट्रूब भे र, कर्ब ता प्रस. है. त्येरच्या कार्ड स्टार्ड कर्ड कर्डना क कार्ड मार्ड कर्डना का राष्ट्र मारकरी संग उन्हेशिका स्वार्ड कर्डना स्वार्ड कर्डना का सार्ड मार्ड कर्डना का सार्ड मार्ड कर्डना का सार्ड मार्ड कर्डना का सार्ड मार्ड कर्डना का सार्ड कर्डना के सार्ड कर्डना का सार्ड कर्डना के सार्ड कर्डना का	नेषन फायनान्स लिमिटेड निष्त, १९११ जनमं) 8) इ. जुन ने दि. (ज.), सामस- १९११४४२८ सार कर्मात वर्षिक जल्मेत्या १९४४ जन्मत कर्मा सिक्स ज्वयती जन्मर कर्मात्रका प्रति कर्मा ज्या
खेळेलेहांची कारणाऱ्या कालम १३ थे विकास: दुर्ख्य दिसांक: १९,०३,२०२१ (पाराषु कारको संभा कोर्नेस्क पुरुष धार्वत, प्रस्ता का किस्त पुरुष धार्वत, प्रस्ता का किस्त (११४१, पुरुषी क्र.с२४० विकास: ब्रह्म कार्जन का की रिवेश विकास: ब्रह्म कार्जन का की रिवेश	उपकलम् (८) भी तरतु सरी औराम सिटी पुरि युत्ती वर्षिकारी र १ च कारा कार्याचे जेल्पा कार्ड के सि (केस्ट्रूब भे र, कर्ब ता प्रस. है. त्येरच्या कार्ड स्टार्ड कर्ड कर्डना क कार्ड मार्ड कर्डना का राष्ट्र मारकरी संग उन्हेशिका स्वार्ड कर्डना स्वार्ड कर्डना का सार्ड मार्ड कर्डना का सार्ड मार्ड कर्डना का सार्ड मार्ड कर्डना का सार्ड मार्ड कर्डना का सार्ड कर्डना के सार्ड कर्डना का सार्ड कर्डना के सार्ड कर्डना का	नेषन फायनान्स लिमिटेड निष्त, १९११ जनमं) 8) इ. जुन ने दि. (ज.), सामस- १९११४४२८ सार कर्मात वर्षिक जल्मेत्या १९४४ जन्मत कर्मा सिक्स ज्वयती जन्मर कर्मात्रका प्रति कर्मा ज्या
चेळेलेहांची कालयाच्या कलन १३ थे जिळाला: दूंबई हितांक: ०२.०३.२०२१ (पायाकु काफो संग ओसिक स्वर्थ विकार हार पायाकु काफो संग ओसिक स्वर्थ विकार स्वर्थ विकार स्वर्थ विकार स्वर्थ विकार स्वर्थ विकार स्वर्थ विकार स्वर्थ विकार स्वर्थ विकार प्रत्ना अधिक स्वर्थ स्वर्थ का जीति दिये स्वर्थ विकार प्रता क्वरिकार्य स्वर्थ का स्वर्थ का प्रता क्वरिकार्य स्वर्थ का अस्तित स्वर्थ का स्वर्थ का स्वर्थ का अस्तित स्वर्थ का स्वर्थ का स्वर्थ का अस्ति स्वर्थ का स्वर्थ का स्वर्थ का स्वर्थ का स्वर्थ का स्वर्थ का स्वर्थ का स्वर्थ का स्वर्थ का अस्तित स्वर्थ का स्वर्थ का स्वर्थ का स्वर्थ	उपकरम (८) थी तरु सही जीराम सिटी पुरि पुरनी विकिस्टारी १२१९ वागा द्वाराम सेन्द्र पुरि राष्ट्र वागा व्यक्त स्टेन्सा २३४९ ८८ १२४९९२८ मा. वाहीर विकास व्यक्ति प्रवार के स्टेन्सा वाही प्रवार के स्टेन्सा वाही प्रवार के स्टेन्सा के स्टेन्सा वाही प्रवार के स्टेन्सा के स्टेन्सा वाही प्रवार के स्टेन्सा के स्टेन्सा के स्टेन्स के स्टेन्स के स्टेन्स के स्टेन्स	वेषन फायनान्स लिमिटेड निरू, १९६३ जनमें) स, मर्स गेड (ग.), सनस- प्राराधभाव प्रदित्त अल्मेन्स १८० था म्लूडी अंग्रेज था. ज (कामर मर्सी सम्प्रक स्वरती राज्य म्लाडीन अल्म स्वरती स्वर्मना स्वर्मी स्वर
केठेनेट्रांगी कारण्याच्या करतन १३ थे ठिकाल: पुंचई हितांक: ०९.०३.२०२१ (पायाड करकी थंग: ठोनिष्ण हार्थ कार्यात्र, निष्णती आप ठोनिष्ण हार्थ कार्यात्र, निष्णती आप ठिपाको (१९४२, परासी कार्य, उपरां परिष्टन, परासी कार, उपरां की ठिपान परिष्टन, परासी कार, उपरां की ठीनिष्ठ , जार्यात्र, निष्णती आप ठिपाको के किंद्र के प्राप्त कार्यक्रम वार्याक्र के किंद्र के प्राप्त कार्यक्रम कार्याक्र के किंद्र के प्राप्त कार्यक्रम कार्यक्र के किंद्र के प्राप्त कार्यक्रम कार्यक्र निष्ठक रियोण्य गार्यक यो. जेव किंदा किंदा का कर्कांत्र: की प्राप्त	उपकरम (८) थी तरह सो औराम सिंही पुरे पुती अभिकारी (२९ जमान कामा केमा प्रभाग कि (केपुर की र अवें ता के (केपुर की र अवें ता के (केपुर की र अवें ता के (केपुर की र अवें ता केमा कामा कामाने, क्या की केमा अनुम कामा का कामा का क	वेषय फायवान्स लिपिटेड विष्ठ, १९९६ जनमें) इ. जर्मा (ए.), सालस- राहर करोन वर्गित कलोन्स स्टर करोन वर्गित कलोन्स स्टर करोन वर्गित कलोन्स स्टर कर नाम्स्ट्रे क्षेत्र करा करा करोन करों साह स्टर करा करों। सा वेगर करों,
चेळेलेहातीत कालयाच्या कालम १३ थे जिळाला: मुंबई सितांक: ०२.०३.२०२१ (पायाय सालकी संग उनेसिक व्यतिक, निक्षानी आप उनेसिक व्यतिक, निक्षानी आप विपाल ता स्वार्थन, निक्षानी आप विपाल ता स्वार्थन, निक्षानी आप, ज्यवे सी निक्षान देखा स्वार्थना कालि स्वित्रे अवस्थित और प्राय्त्र अप पिल्म, नदार्थ जाय देखा, प्राय्त्र के सिद्ध साला उजनेत्वा सालित्य प्रार्थन के स्वार्थना कालि स्वार्थना के सिद्ध साला उजनेत्वा सालित्य प्रार्थन के साल उजनेत्वा सालित्य साल क्वांत्र के स्वार्थना काला, ज्यां सी निक्षान किया साल क्वांत्र के सा व्यवस्थि के साल प्रार्थना साल के साल साल के स्वार्थना काला साल साल क्वांत्र काला प्रार्थना काला काला, साल प्रार्थना काला, ज्यां सित्र	उपकरम (८) थी तरह मारी औराम सिदी पूर् पुत्नी वसिकारी १९६४ जागुर करको केला स्वार्थ के ति, देवेलुपर मे र, कर्व ता एक, उर्देश्वार स्वार्थ किलान क्वांत किलान कर वा मांग लड्ड कर्वरार प प्रकार प्रतार अपने क्वांत कर्वा क्रम्प्रे क्वांत क्वंत केला स्वार्थ के प्रतार केला क्वांत कर्वा क्रम्प्र का प्रतार केला कर्व के क्वां के प्रतार केला कर्म के प्रतार का प्रतार क्वांत प्रतार केला प्रतार कर्म का प्रतार का प्रतार किरारार/1415	वेषय फायवान्स लिपिटेड विष्ठ, १९९६ जनमें) इ. जर्मा (ए.), सालस- राहर करोन वर्गित कलोन्स स्टर करोन वर्गित कलोन्स स्टर करोन वर्गित कलोन्स स्टर कर नाम्स्ट्रे क्षेत्र करा करा करोन करों साह स्टर करा करों। सा वेगर करों,
चेळवेहांदार्ग कारणाऱ्या कालम १३ थे विकास: पूंचई सितांक: ०२.०३.२०२१ (पायाय सरफर्मा संग करिस्ट पायाय सरफर्मा संग करिस्ट प्रायाय सरफर्मा संग करिस्ट प्रायाय सरफर्मा सरफर्मा करिस्ट (१९४२, परसा कार्या स्त्र प्रियान स्वर्ग करिक्ट स्वार्ग करिस्ट (१९४२, परसा करिस्ट स्वर्ग करिक्ट स्वार्ग करिस्ट स्वर्ग करिक्ट स्वार्ग करिस्ट (१९४२, परसा करिस्ट स्वर्ग करिक्ट स्वार्ग करिस्ट स्वर्ग करिस्ट स्वर्ग करिक्ट स्वर स्वर्ग करिस्ट (१९४२, १९४२) (१९४२, १९४२, १९४२) (१९४२, १९९४, १९४२) (१९४२, १९९४, १९४२) (१९४२, १९९४, १९४२) (१९४४, १९९४, १९४४) (१९४४, १९४४, १९४४)	उपकरम (८) थी तरह मारी औराम सिदी पूर् पुत्नी वसिकारी राप्त क्याने कर स्वित्र पुर माप्त कर स्वार्थ कर स्वार्थ कर स्वार र, वर्ष ता प्रय, 2, देवसा प्रय, 1, वसीर सिकाम कर वागीन स्वार क्यान कर स्वार प्रय, वसी प्रय, 2, व्यवसा प्रय कर्ण कर प्रय, 2, व्यवसा प्रय कर प्रय, 2, व्यवसा प्रय, 2, व्यवसा प्रय कर प्रय, 2, व्यवसा प्रय, 2, व्यवसा प्रय कर प्रय, 2, व्यवसा प्रय, 2, व्यवसा प्रय, 2, व्यवसा प्रय कर प्रय, 2, व्यवसा प्रय, 2, व्यवसा प्रय, 2, व्यवसा प्रय कर प्रय, 2, व्यवसा	वेषय फायवान्स लिमिटेड विष्ठ, १९९६ जनमें) इ. जर्मा (ए.), सालस- राहर करोल वर्गित कलोन्स स्टर करोल वर्गित कलोन्स स्टर करोल वर्गित कलोन्स स्टर कर नामले करा कर करा करोत कर सालकेस प्रारंभा कर सालकेस सहित स नेमार करो.
खेळेलेल्वीच कारवारचा कालन १३ थे जिलागड सुर्ख्य दिरांज : ०१.०३.२०२१ पिराया कारको संग कोनेकर पुरायाय कारको संग कोनेकर पुरायाय कारको संग कार्नेकिन प्रायाय कारको संग कारको किंग जिलाहम कार्या प्राया की किंग जिलाहम कार्या प्राया कर के कार्या के कारको कारको कारको जिलाहम कार्या प्राया कर के कार्या के कारको कारको कार जिलाहम कार्या प्राया कर कार्या के कार्या कारको कार के कार्या के कारको कार्या कार्या के के कार्या कारको कारको कार के कार्या के कारको का कार के कार्या कारको कारको का के कार्या कारको का कार के कार्या कारको का कार के कार्या कारको का कार के कार्या कारको कार के कार्या कारको का कारको का कार कार्या कारको का कार कार्या कारक कार कार्या कारको का कार	उपायलम (c) थी गए। महारी औराम सिंही पूर्ण बुद्धी अभिकार निर्धा के प्रियम कि कि. (बेक्कुबर के मार्ज के कि. (केक्कुबर के कि. के कि. (केक्कुबर के कि. के कि. (केक्कुबर के कि. के कि. (केक्कुबर के की. कि.()) तर्ग के का कि.	वेश्व प्राप्तान्ता सिमिटिट जिल्ह् . (१६ जनमें) 9. सर्व सेंद (१.), आपरा- १९१९ (१९३८) स्वर सेंद के प्राप्त के प्राप्त के प्राप्त से प्राप्त के प्राप्त के प्राप्त के प्राप्त से प्राप्त के प्राप्त के प्राप्त के प्राप्त से प्राप्त के प्राप्त के प्राप्त के प्राप्त से से प्राप्त के प्राप्त के प्राप्त के प्राप्त से से प्राप्त के प्राप्त के प्राप्त के प्राप्त से से प्राप्त के प्राप्त के प्राप्त के प्राप्त के प्राप्त से से प्राप्त के प्राप्त के प्राप्त के प्राप्त के प्राप्त से से प्राप्त के प्राप्त के प्राप्त के प्राप्त के प्राप्त के प्राप्त के प्राप्त से प्राप्त के प्राप्त से प्राप्त के प्राप्त
खेळेलेल्लीक कारण्याच्या कालन १२ थे जिलागाः पुंचनुं दिनांकाः ०९.०३.२०२१ पितायाः व्याप्तः विद्यार्थे कार्याप्तः प्राप्तायाः कारण्यां संस्था कार्याप्तः युवायां विद्यापतः प्राप्ताः प्राप्ताः वर्षाप्तः विद्यापतः प्राप्ताः प्राप्तः वर्षाप्तः विद्यापतः प्राप्तः संस्था विद्यारः, त्रव्यां वर्त्राः, प्राप्तां की तिरोधाः प्रित्याः व्याप्तः प्राप्ताः वर्त्रा स्वतं वर्षाप्त्रां व्याप्तः स्वतं स्वतः उपनि स्वितं वर्षाप्ताः वर्त्रायाः वर्त्राः, प्राप्तां की तिरोधाः प्रित्याः व्याप्तः व्यात् स्वतं स्वतः उपनि स्वितं प्राप्ताः व्याप्तः स्वतं स्वतः उपनि स्वितं व्यापतिः व्याप्तः स्वतं कार्याः व्याप्तिः , प्राप्तिः व्याप्तः व्यात् स्वतं स्वतः व्याः व्याप्तिः प्राप्ताः व्याप्तः व्याप्तः व्याप्तः व्याप्तः व्याप्तः की स्वतं कारः अद्याप्तः व्याप्तः व्याप्तः स्वतिः व्याप्तः व्याप्ताः व्याप्तः वर्त्र्याः व्याप्तः विद्यात् स्वतः अद्याप्तः व्याप्तः व्याप्तः व्याप्तः विद्यां स्वतः स्वतः स्वतः स्वतः स्वतिः विद्याप्ताः व्याप्तिः स्वतः स्वतः स्वतिः विद्याप्ताः स्वतः स्वतः स्वतः स्वतिः विद्याप्ताः स्वतः स्वतः स्वतः स्वतः स्वतः स्वतिः विद्याप्तानः स्वतः स्वतः स्वतः स्वतः स्वतिः विद्याप्ताः स्वतः स्वतः स्वतः स्वतः स्वतः	जपकरम (८) थी गए। महारे औराम सिटी पूर्ण बुली जविषकारी रारप्र जाताह वावकी केला स्वार्थ कि ति, खिल्कुब के राष्ट्र (८) प्रेराप्र ८, गी. ब्रेकी विषक मुद्र का कालामे कुछ कर्रप्र २, गी. ब्रेकी विषक मुद्र का कालामा कुछ कर्रप्र २, गी. ब्रेकी विषक मुद्र का कालामा कुछ कर्रप्र २, गी. ब्रेकी कि का मुद्र का कालामा कुछ कर्रप्र २, गी. ब्रेकी कि का मुद्र का केला का कि का मुद्र का के का का की का मार्ट का के का का की की का मार्ट	वेश्व प्राप्तान्ता सिमिटिट जिल्ह् . (१६ जनमें) 9. सर्व सेंद (१.), आपरा- १९१९ (१९३८) स्वर सेंद के प्राप्त के प्राप्त के प्राप्त से प्राप्त के प्राप्त के प्राप्त के प्राप्त से प्राप्त के प्राप्त के प्राप्त के प्राप्त से प्राप्त के प्राप्त के प्राप्त के प्राप्त से से प्राप्त के प्राप्त के प्राप्त के प्राप्त से से प्राप्त के प्राप्त के प्राप्त के प्राप्त से से प्राप्त के प्राप्त के प्राप्त के प्राप्त के प्राप्त से से प्राप्त के प्राप्त के प्राप्त के प्राप्त के प्राप्त से से प्राप्त के प्राप्त के प्राप्त के प्राप्त के प्राप्त के प्राप्त के प्राप्त से प्राप्त के प्राप्त से प्राप्त के प्राप्त
केठेनेहांगी कामयाप्या कालम १३ थे दिवलाण: पूंचई मितांक: ०२.०३.२०२१ (पायाव काफनी संग उनेसिक व्यतिका प्रकारी संग उनेसिक व्यतिका प्रकारी संग उनेसिक व्यतिका प्रकार प्रवासिक ता स्वर्थन, प्रकारी काम, प्रदास ता स्वर्थन, प्रकारी काम, प्रदास ता स्वर्थन, प्रकारी काम, क्यों की सिक ता स्वर्थन, प्रकारी काम, क्यों की सिक विक्राल प्रकार काम काम्या, प्रतास के किंदन काम काम्या काम्या प्रतास किंदन काम काम्या काम्या प्रतास किंदन काम काम्या काम्या प्रतास किंदन काम काम्या काम्या प्रतास किंदन काम काम्या काम्या काम्या काम्या किंदन काम काम्या काम्या काम्या काम्या काम्या किंदन काम्या	उपकरम (८) थी सहयू महत्ते भीराम सिदी पूर्ण दुनी वरिवर्णा रा क्या कार्य करना रा कार्य करना रा कार्य करना वा कार्य करना वा कार्य करना रा कार्य करना वा कार्य करना रा केर करना रा कार्य करना रा केर करना रा कार्य करा रा कार्य करा करा रा कार्य करा रा कार्य करा करा करा करा करा करा करा करा करा करा	वेच प्राप्ताना सिमिटेड किन्दु .१९६ जनमें) •) •) • स्वर मेंद (१,), साला- राहा प्रश्ने क्रां क जन्मे ना राहा करीब क्रांक जन्मे ना ना कर्मना कर्मना करने का कर्मना करने का कर्मना करने का कर्मना करने का कर्मना करने का करने का करने करने का करने का करने करने का करने करने का करने करने का करने करने का करने करने का करने करने करने का करने करने करने का करने करने करने करने का करने करने करने करने का करने करने करने करने करने का करने करने करने करने करने करने का करने करने करने करने करने करने करने करने
केठेनेहांगी कामयाप्या कालम १३ थे दिवलाण: पूंचई मितांक: ०२.०३.२०२१ (पायाव काफनी संग उनेसिक व्यतिका प्रकारी संग उनेसिक व्यतिका प्रकारी संग उनेसिक व्यतिका प्रकार प्रवासिक ता स्वर्थन, प्रकारी काम, प्रदास ता स्वर्थन, प्रकारी काम, प्रदास ता स्वर्थन, प्रकारी काम, क्यों की सिक ता स्वर्थन, प्रकारी काम, क्यों की सिक विक्राल प्रकार काम काम्या, प्रतास के किंदन काम काम्या काम्या प्रतास किंदन काम काम्या काम्या प्रतास किंदन काम काम्या काम्या प्रतास किंदन काम काम्या काम्या प्रतास किंदन काम काम्या काम्या काम्या काम्या किंदन काम काम्या काम्या काम्या काम्या काम्या किंदन काम्या	जपकरम (८) थी सहय भौराम सिटी भुर्ग दुती वविषकरी राप्त काला कर के बार्ग के सिर्ट पुर्व कार्य के स्थान प्रदे	वेच प्राप्ताना सिमिटेड किन्दु .१९६ जनमें) •) •) • स्वर मेंद (१,), साला- राहा प्रश्ने क्रां क जन्मे ना राहा करीब क्रांक जन्मे ना ना कर्मना कर्मना करने का कर्मना करने का कर्मना करने का कर्मना करने का कर्मना करने का करने का करने करने का करने का करने करने का करने करने का करने करने का करने करने का करने करने का करने करने करने का करने करने करने का करने करने करने करने का करने करने करने करने का करने करने करने करने करने का करने करने करने करने करने करने का करने करने करने करने करने करने करने करने
खेळेलेल्लीक कारण्याच्या कालन १२ थे जिलागाः पुंचनुं दिनांकाः ०९.०३.२०२१ पितायाः व्याप्तः विद्यार्थे कार्याप्तः प्राप्तायाः कारण्यां संस्था कार्याप्तः युवायां विद्यापतः प्राप्ताः प्राप्ताः वर्षाप्तः विद्यापतः प्राप्ताः प्राप्तः वर्षाप्तः विद्यापतः प्राप्तः संस्था विद्यारः, त्रव्यां वर्त्राः, प्राप्तां की तिरोधाः प्रित्याः व्याप्तः प्राप्ताः वर्त्रा स्वतं वर्षाप्त्रां व्याप्तः स्वतं स्वतः उपनि स्वितं वर्षाप्ताः वर्त्रायाः वर्त्राः, प्राप्तां की तिरोधाः प्रित्याः व्याप्तः व्यात् स्वतं स्वतः उपनि स्वितं प्राप्ताः व्याप्तः स्वतं स्वतः उपनि स्वितं व्यापतिः व्याप्तः स्वतं कार्याः व्याप्तिः , प्राप्तिः व्याप्तः व्यात् स्वतं स्वतः व्याः व्याप्तिः प्राप्ताः व्याप्तः व्याप्तः व्याप्तः व्याप्तः व्याप्तः की स्वतं कारः अद्याप्तः व्याप्तः व्याप्तः स्वतिः व्याप्तः व्याप्ताः व्याप्तः वर्त्र्याः व्याप्तः विद्यात् स्वतः अद्याप्तः व्याप्तः व्याप्तः व्याप्तः विद्यां स्वतः स्वतः स्वतः स्वतः स्वतिः विद्याप्ताः व्याप्तिः स्वतः स्वतः स्वतिः विद्याप्ताः स्वतः स्वतः स्वतः स्वतिः विद्याप्ताः स्वतः स्वतः स्वतः स्वतः स्वतः स्वतिः विद्याप्तानः स्वतः स्वतः स्वतः स्वतः स्वतिः विद्याप्ताः स्वतः स्वतः स्वतः स्वतः स्वतः	उपाधलम (८) थी तरह) मरते भौराम सिदी पूर्ण दुन्ती विश्विपत्री राप्त खात्र वस्ता सेला राप्त खात्र के सिद्धान्त्र के सिद्धान्त्र के राप्त स्वार्थन सुध्र के सिद्धान्त्र के बार्गा साम्य प्रत के सिद्धान्त्र के साम्य का सिद्धान्त्र के साम्य वार्गा सिद्धान्त्र के साम्य का सेला साम्य का सेला साम्य का सेला साम्य का सेला साम्य का सेला साम्य साम्य सेत्र का साम्य राप्त के साम्य साम्य सेत्र का साम्य राप्त के साम्य साम्य सेत्र का साम्य राप्त के साम्य	वेच्य प्राप्तान्स, सिमिटेट किल, १९६३ जमरे) 9) 8) 8) 80, स्वर्थ कि (१९, जमरे) 9) 8) 8) 8) 8) 8) 8) 8) 9) 9) 9) 9) 9) 9) 9) 9) 9) 9) 9) 9) 9)
केठेनेहालेक कारणाज्या कारण १३ के किठाला : पुरेख दिर्वाचा : ०१.०३.२०२१ पिताया कारणा के साम क्रिकेस (पायाय कारणा के साम क्रिकेस प्रथा कार्यल, प्रथा के साम क्रिकेस (पायाय कारणा के साम क्रिकेस (पायाय कारणा के साम क्रिकेस (पायाय कारणा के साम क्रिकेस के पिते के साम कारणा के साम क्रिकेस के पिते के साम कारणा के साम क्रिकेस पित्रकर, तरवाया कारण, प्रथा की किर्मेस पित्रकर, तरवाया कारण, प्रथा की किर्मेस प्रथा के प्रथा के साम कारणा के साम क्रिकेस प्रथा के प्रथा के साम कारणा के साम क्रिकेस प्रथा के प्रथा के प्रथा के साम क्रिकेस प्रथा के प्रथा के प्रथा के साम कारणा के साम क्रिकेस प्रथा के प्रथा कारणा कारणा के साम के प्रथा के साम के प्रथा के प्रथा के प्रथा के साम कारणा के साम कारणा के प्रथा के साम कारणा के प्रथा के साम कारणा के प्रथा के साम कारणा	उपायलम (८) थी साह मारी भौराम सिंही पूर्ण बुली वनिष्कारी राप्त व्याप्त करना सिंहम् बार्म के प्रि. (बेक्सूब के बार्म के प्रि. (बेक्सूब के प्राडम (८) प्राडम्पर, सा बार्मा कि किस्क कर्मा कालामंदी, कार्या का प्रतिका प्रती किस्कू कर्मा कालामंदी, कार्या का प्रतिका कुला कालामंदी कार्या का बार्मा कालामंदी कार्या का बार्मा कालामंदी कार्या का बार्मा कालामंदी कार्या का बार्मा कार्या का कार्या का बार्मा कार्या का कार्या का बार्मा कार्या कार्या का जार कार्या का कार्या का जार कार्या का कार्या का जार कार्या का कार्या का कार कार्या का कार्या का जार कार्या का कार्या का कार्या का कार्या का कार्या का कार्या का कार्या का कार्या का कार्या का कार्या का कार्या का कार्या का कार्या का कार्या का कार्या कार्या	वेच्य प्राप्तान्स, सिमिटेट किल, १९६३ जमरे) 9) 8) 8) 80, स्वर्थ कि (१९, जमरे) 9) 8) 8) 8) 8) 8) 8) 8) 9) 9) 9) 9) 9) 9) 9) 9) 9) 9) 9) 9) 9)
केटेलेंग्लीय कारणाऱ्या कालन १३ थे जिसाक: पुंचई दिसाक: १९४२ स्वितिक: १९४२ स्वतिक: १	उपायलम (८) थी साइ महासे भौराम सिटी पूर्ण दुसी विश्विपरी राप्य प्राहा वार्थ्य के राप्य प्राहा के सार्थ के सिटा प्राहा के सामले मुद्द अप्रति का महामाने मान् कार्य का कार्य का प्राह्म का कार्य का का कार्य का कार्य का का का का का का का का का का का का का क	वेश्व प्राप्तान्त सिमिटेट जिल, १९६१ अवर्थ) में प्रति हिंद (ह), आपरा- राजा प्रति हेंद (ह), आपरा- राजा प्रति के क्षित्र अपनि का दे एजा राजा हो के कि का प्राप्त के प्राप्त का प्रति के का प्राप्त के प्राप्त का प्रति के का प्राप्त के प्राप्त का प्रति के का प्राप्त के दी तैन कि, मैं(ह), नर्वे 10%, में हे का जात का अपने प्रति , स्वर 19
केठेनेहालेल काल्याच्या कालन १२ वे किरानाव: पूंचहं दिनांक: ०९.०३.२०२२ (पायाय काल्यांने काल्यां कालन १२ वे प्रियाया काल्यांने काल्यां कालन प्राय कार्यात: काल्यां कालन काल्यां कालन प्राय कार्यात: काल्यां काल्यां काल्यां प्राय कार्यात: काल्यां काल्यां काल्यां प्राय कार्यात: काल्यां कालं कालं कालं काल्यां काल्यां कालं कालं कालं कालंपात काल्या कालंगाः कालं कालं कालं कालंपात कालंगा कालंगा कालंगां कालं कालंपात कालंगा कालंगा कालंगां कालंगां कालं अपनेतां कालंगा कालंगा कालंगां कालंगां कालं कालंपात कालंगा कालंगा कालंगां कालंगां कालंगां कालंपात कालंगा कालंगा कालंगां कालंगां कालंगां कालंगा कालंग कालंगा कालंगां कालंगां कालंगां कालंगां कालंगा कालंगा कालंगां कालंगां कालंगां कालंगां कालंगा कालंगां कालंगां कालंगा कालंगा कालंगा कालंगां कालंगां कालंगा कालंगा कालंगा कालंगां कालंगा कालंगा कालंगा कालंगा कालंगां कालंगा कालंगा कालंगां कालंगा काल	उपायलम (८) थी साइ महासे भौराम सिटी पूर्ण दुसी विश्विपरी राप्य प्राहा वार्थ्य के राप्य प्राहा के सार्थ के सिटा प्राहा के सामले मुद्द अप्रति का महामाने मान् कार्य का कार्य का प्राह्म का कार्य का का कार्य का कार्य का का का का का का का का का का का का का क	वेश्व प्राप्तान्त सिमिटेट जिल, १९६१ अवर्थ) में प्रति हिंद (ह), आपरा- राजा प्रति हेंद (ह), आपरा- राजा प्रति के क्षित्र अपनि का दे एजा राजा हो के कि का प्राप्त के प्राप्त का प्रति के का प्राप्त के प्राप्त का प्रति के का प्राप्त के प्राप्त का प्रति के का प्राप्त के दी तैन कि, मैं(ह), नर्वे 10%, में हे का जात का अपने प्रति , स्वर 19
केठेनेहालेक कारणाच्या कारण १३ के किरामाण्ड : पुंचहे दिनाराण्ड : पुंचहे दिनाराण्ड : पुंचहे प्रायाण्ड कारणी संग होनीस्म स्त्राप्त कारणी संग होनीस्म प्रायाण्ड कारणी संग होनीस्म प्रायाण्ड कारणी संग हानार कार्य कि विकार के प्रायाण्ड कारणी किरामा विकार कारणा कारणी कर के प्रायाण्ड विकार के प्रायाण्ड कारणी किरामा विकार के प्रायाण्ड कारणी किरामा विकार के प्रायाण्ड कारणी कारणी विकार के प्रायाण्ड कारणी कारणी विकार के प्रायाण्ड कारणी कारणी विकार के प्रायाण्ड व कारणी कारणा कारणी कारणी कारणी विकार के प्रायाण्ड कारणी कारणी विकार के प्रायाण्ड कारणी कारणी कारणी विकार के प्रायाण्ड कारणी कारणी कारणी कारणा व कारणी कारण के प्रायाण कारणी कारणी कारणा त तथा कारणी के की कारणा कारणी किरामा कारणी कारण कारणी के की कारणा कारणी के की कारणा कारणी कारण कारणी के की कारणा कारणी किरामा कारणी कारणा कारणी के की कारणा कारणी किरामा कारणी कारणा कारणी के की कारणा कारणी किरामा कारणी कारणी कारणा कारणी के की कारणा कारणी कारणा कारणी कारणी कारणा कारणी के की कारणा कारणी कारणा कारणी कारणी कारणा कारणी के की कारणा कारणी किरामा कारणी कारणी कारणा कारणी के की कारणा कारणी किरामा कारणी कारणी कारणा कारणी के की कारणा कारणी कारणा कारणी कारणा कारणी कारणी कारणा कारणी के की कारणा कारणी कारणा कारणा कारणी कारणा कारणा कारणी कारणा कारणा कारणी कारणा कारणा कारणी कारणा क	उपायलम (c) थी सहय महा भीराम सिटी पूर्ण बुली जनियलमी रारप जावाह जनवाते जेला स्वार्ग पेक ति, रेख्युल्य के तु नर्व ता पर, उर्ल्या कारी पितान स्वार्ग पायलम् (देख्युल्य के प्रात्मा पर, उर्ल्या कारी तिकाम प्रात्मा प्रात्मार (देख्युल्य के प्रात्मा प्रात्मार) कार्य के प्रात्मा प्रायत्म कार्य के प्रात्मा प्रायत्म कार्य के प्रात्मा प्रायत्म कार्य के प्रात्मा प्रायत्म कार्य के प्रात्मा कार्य के प्रात्म कार्य के कार्य के प्रात्मा कार्य के प्रात्म कार्य के का कार्य के कार्य के कार्य के कार्य के कार्य के कार्य के कार्य के कार्य के कार्य के कार्य के कार्य के कार कार्य के कार कार्य के कार कार कार के कार कार कार कार कार कार कार कार कार कार कार कार कार कार	वेश्व प्राप्तान्त सिमिटेट जिल, १९६१ अवर्थ) में प्रति हिंद (ह), आपरा- राजा प्रति हेंद (ह), आपरा- राजा प्रति के क्षित्र अपनि का दे एजा राजा हो के कि का प्राप्त के प्राप्त का प्रति के का प्राप्त के प्राप्त का प्रति के का प्राप्त के प्राप्त का प्रति के का प्राप्त के दी तैन कि, मैं(ह), नर्वे 10%, में हे का जात का अपने प्रति , स्वर 19
केटेनेहांगर्ग कारणाऱ्या कारण १३ में किरानाः रुपुंच विद्राराः १९४. 02.2028 पिराणः १९४. 02.2028 (पाण्या कारणां संग संग कार्नेस्व पुरुष वार्थतर, प्राप्ता संग स्वत कार्यन्त प्राप्ता कारणां संग स्वत कार्यन्त विवरत, प्राप्ता का स्वत कार्यन्त विवरत, कारणां कार, प्राप्ता संग विरोधना परिवरत, कारणां कार, प्राप्ता संग विरोधना परिवरत, कारणां कार, प्राप्ता संग विरोधना परिवरत, कारणां कार, प्राप्ता संग किरोधना प्राप्ता कारणां कार्यन्त कार्यन्त विराप्त कारणां कारणां कार्यन्त विराप्त कारणां कारणां कार्यन्त विराप्त कारणां कारणां कारणां कार्यन्त विराप्त कारणां कारणां कारणां कारणां कारणां विराप्त कारणां कारणां कारणां कारणां कारणां केर्यात्र कारणां कारणां कारणां कारणां कारणां कारणां कारणां केर्यात्र कारणां	उपायलम (८) थी साथ मारी भौराम सिंही पूर्ण बुली वनिष्ठारी राप्त व्यावस के सिंही पूर्ण बुली वनिष्ठार के सिंही पुर्ण बिसे सिल्क का सामित्र के प्रथम के सिंही का सिंही सिल्क का सामित्र के प्रथम के सिंही का सिंही क	वेच्य प्राप्तान्ता सिमिटेड कि
केठेनेहांगती कालयाच्या कालम १३ में जिलागाः पूंचई दिवाराः १९४३ (पाराणु काठती संग ठोनिक व्यति कार्यात् २३,२०२२ (पाराणु काठती संग ठोनिक व्यति कार्यात् २३,२०२२ पाराणु काठती संग ठीनिकार (राधान् २३,२०२२) पाराणु काठती संग ठिवारा (राधान् २३,२०२४) पाराणु काठ्या संग ठानिकार (राधान् २३,२२४) केत्रिय संग ठानिकार कार्यात् वि केत्रा २३,२२४) केत्रा प्रदेश कार्यात् व्यत् कार्यात् वि केत्रा २३,२२४) केत्रा प्रदेश कार्यात् व्यत् कार्यात् व्य केत्रा विक्रा कार्यात् व्यत् कार्यात् व्य केत्रा विक्रा कार्यात् व्यत् कार्यात् व्य कार्यात् व्यत् प्रकार कार्यात् व्यत् कार्यात् व्यत् केत्रा २४,२४,२४,२४,२४,२४,२४,२४,२४,२४,२४,२४,२४,२	उपायलम (८) थी सहय महारे भौराम सिटी पूर्ण पुरनी जेविन्यारी राप्य कामान सुर, होर्ट्या प्र वर्ष प्र कर (संप्रदर, मेर- प्र वर्ष प्र प्र कर (संप्रदर, मेर- प्र वर्ष प्र प्र प्राप्य कर (संप्रदर, मार- प्र प्राय्त कर मार्गित कर का सुरक्ष कामान प्र प्राय्त कर कामा सुरक्ष कामान प्र प्र प्र प्र प्र प्र प्र कामान प्र प्र प्र प्र प्र प्र प्र कामान प्र कामान प्र प्र प्र प्र प्र प्र प्र कामान प्र कामान प्र प्र कामान प्र प्र प्र प्र प्र प्र कामान प्र कामान प्र कामान प्र कामान प्र प्र प्र प्र प्र प्र कामान प्र कामान प्र कामान कर कामाने कामा का कामाने कामान कामान कामाने	वेवय प्राप्तान्त सिमिटेट किंग, १९६१ अवसे) किंग, १९६१ अवसे) किंग किंग (१९. (१.), स्लाप्त- ९२१ प्राप्त कर्षा के प्राप्त कर्मना केंग प्राप्त कर प्राप्त कर प्राप्त कर प्राप्त कर प्राप्त कर प्राप्त कर प्राप्त कर प्राप्त कर प्राप्त कर प्राप्त कर प्राप्त कर प्राप्त कर प्राप्त कर प्राप्त कर प्राप्त कर प्राप्त कर प्राप्त कर कर विकार्य, कर्म द्राराह/1, (१९२,
चेळवेल्लांग कारणपार्थ्या कारण १३ में दिवासाः पूंचई वितायः १०८३,२०२२ महार्थ्या २३,२०२२ (भाषाणु कारणी संभा कार्यस्य स्वर्ण विकास व्यवस्य कार्यस्य कार्यस्य राज्यात्रेय, त्रिवानो साम विवास्य तार्वात्र प्रकार कार्यस्य राज्यात्र प्रकार कार्यस्य तार्वात्र प्रकार कार्यस्य विकास देवास्य कार्यस्य कार्यस्य कार्यस्य कार्यस्य कार्यस्य कार्यस्य कार्यस्य कार्यस्य कार्यस्य कार्यस्य विकास देवास्य कार्यस्य व्यवस्य कार्यस्य कार्यस्य विकास देवास्य कार्यस्य कार्यस्य कार्यस्य कार्यस्य कार्यस्य कार्यस्य कार्यस्य विकास देवास्य कार्यस्य व्यवस्य कार्यस्य कार्यस्य विकास देवास्य कार्यस्य कार्यस्य कार्यस्य कार्यस्य कार्यस्य कार्यस्य कार्यस्य कार्यस्य कार्यस्य कार्यस्य कार्यस्य कार्यस्य कार्यस्य कार्यस्य कार्यस्य कार्य स्वरूप्य कार्यस्य कार्यस्य कार्य स्वरूप्य कार्यस्य कार्य	उपायलम (८) थी सहय महारे भौराम सिटी पूर्ण पुरनी जेविन्यारी राप्य कामान सुर, होर्ट्या प्र वर्ष प्र कर (संप्रदर, मेर- प्र वर्ष प्र प्र कर (संप्रदर, मेर- प्र वर्ष प्र प्र प्राप्य कर (संप्रदर, मार- प्र प्राय्त कर मार्गित कर का सुरक्ष कामान प्र प्राय्त कर कामा सुरक्ष कामान प्र प्र प्र प्र प्र प्र प्र कामान प्र प्र प्र प्र प्र प्र प्र कामान प्र कामान प्र प्र प्र प्र प्र प्र प्र कामान प्र कामान प्र प्र कामान प्र प्र प्र प्र प्र प्र कामान प्र कामान प्र कामान प्र कामान प्र प्र प्र प्र प्र प्र कामान प्र कामान प्र कामान कर कामाने कामा का कामाने कामान कामान कामाने	वेवय प्राप्तान्त सिमिटेट किंग, १९६१ अवसे) किंग, १९६१ अवसे) किंग किंग (१९. (१.), स्लाप्त- ९२१ प्राप्त कर्षा के प्राप्त कर्मना केंग प्राप्त कर प्राप्त कर प्राप्त कर प्राप्त कर प्राप्त कर प्राप्त कर प्राप्त कर प्राप्त कर प्राप्त कर प्राप्त कर प्राप्त कर प्राप्त कर प्राप्त कर प्राप्त कर प्राप्त कर प्राप्त कर प्राप्त कर कर विकार्य, कर्म द्राराह/1, (१९२,
चेळेलेल्लीम कारुवाराच्या कालन १३ में जिलागाः सुंख्ये जिलागाः १९४० ३,२०२१ पिरायाः २९४० ३,२०२१ पिरायाः २९४० ३,२०२१ पिरायाः २९४० ३,२०२१ पिरायाः २९४४ व्याप्ति विकास पुरुष वार्थातः १९४४ व्याप्ति विकास राज्यां २९४४ व्याप्ति विकास राज्यां २९४४ व्याप्ति वर्षे भरत वर्षे किंगे विकास राज्या कार्याः उद्यां वर्षे किंगे विकास राज्या कार्याः उद्यां वर्षे किंगे विकास राज्या कार्याः वर्षे कार्या विकास राज्या कार्याः वर्षे कार्या विकास राज्या कार्याः वर्षे कार्या विकास राज्या कार्याः वर्षे कार्या विकास राज्या कार्याः वर्ष्याः वर्षे कार्या विकास राज्या कार्याः वर्षे कार्या व्याप्ति व्याप्ताः वर्षे वर्षे कार्याः वर्षे कार्या विकास राज्या वर्षे कार्या कार्याः वर्षे कार्या विकास राज्या वर्षे कार्या कार्याः वर्षे वर्षे कार्या विकास राज्या वर्षे कार्या कार्या वर्ष्या विकास राज्या वर्षे कार्या कार्या वर्षे कार्या विकास राज्या कार्या वर्षे कार्या कार्या विकास राज्या कार्या कार्या वर्षे कार्या विकास राज्या कार्या कार्या कार्या विकास राज्या कार्या कार्या वर्षे दे कार्या विकास राज्या कार्या कार्या कार्या कार्या विकास राज्या कार्या कार्या कार्या विकास राज्या कार्या कार्या कार्या कार्या वेत्या कार्या कार्या कार्या कार्या कार्या कार्या वेत्या कार्या कार्या कार्या कार्या कार्या कार्या कार्या कार्या कार्या कार्या वेत्या कार्या कार्य	जपावलम (c) थी साथ मारी भीराम सिटी पूर्ण बुद्धी जमिलकारी राप्त जावा काका के मार्ग के सि. बिल्कुम्ब के राप्त कर काम के कि कि काम के कि कि कि काम कु काम के कि कि काम कि काम काम के कि कि कि काम कि काम काम के कि कि काम कि काम के काम काम के कि कि काम के काम के काम के काम काम के काम काम के काम के काम के काम काम के काम कि काम के काम के काम के काम के काम काम के काम काम के काम काम काम के काम कि काम के काम के काम के काम के काम	वेश्व प्राप्तान्त सिमिटेड जिल, १९६१ जमरे) अ. स्पूर्व सेद (१,१,१,१९९२- १९९२ के प्राप्त के लि के प्राप्त के प्र
चेळेलेल्वीम कारक्षणच्या काल १३ में जिलाए : पुंच दिलाए : प्र. 0.2, 20 २२ (पाला कु काल्यों संग कोनेस्ट प्राय कार्यल, 19 में स्वार्थ (पाला कु काल्यों संग कार्यलेस्ट (पाला कु काल्यों संग कार्यलेस्ट (पाला कु काल्यों संग कार्यलेस्ट (पाला कु काल्यों संग कार्यलेस्ट (पाला कु काल्यों संग कार्यलेस्ट कोन्द्र कार्यलेस्ट केर्ड स्वार्थ कार्यलंस्ट केर्ड स्वार्थ कार्य केर्ड स्वार्थ केर्ड स्वार्थ कार्ड स्वार्थ के स्वार्थ केर्ड स्वार्थ कार्ड केर्ड स्वार्थ कार्ड स्वार्थ कार्ड केर्ड स्वार्थ कार्ड स्वार्थ कार्ड केर्ड स्वार्थ कार्ड स्वार्ड संग कार्ड संग कार्ड केर्ड स्वार्थ कार्ड स्वार्ड संग कार्ड संग कार्ड	जपावलम (८) थी साथ मारी भीराम सिटी पूर्ण बुद्धी अभिकार सिटी पूर्ण बुद्धी अभिकार सिटी पूर्ण बिसी किस्ता बिसी किस्ता बार्म किस्ता किस्ता कर के बार्म किस्ता किस्ता का बार्म किस्ता किस्ता कि बार्म किस्ता किस्ता किस्ता का बार्म किस्ता किस्ता किस्ता का बार्म किस्ता किस्ता किस्ता का बार्म किस्ता किस्ता किस्ता का बार्म किस्ता का किस्ता की बार्म बार्म किस्ता किस्ता का बार्म किस्ता का किस्ता का बार्म किस्ता का किस्ता का बार्म किस्ता का किस्ता का बार्म किस्ता का का किस्ता का बार्म किस्ता का का किस्ता का बार्म किस्ता का का किस्ता का	वेच्य प्राप्तान्त सिमिटेड कि
चेळेलेल्वीम कारक्षणच्या काल १३ में जिलाए : पुंच दिलाए : प्र. 0.2, 20 २२ (पाला कु काल्यों संग कोनेस्ट प्राय कार्यल, 19 में स्वार्थ (पाला कु काल्यों संग कार्यलेस्ट (पाला कु काल्यों संग कार्यलेस्ट (पाला कु काल्यों संग कार्यलेस्ट (पाला कु काल्यों संग कार्यलेस्ट (पाला कु काल्यों संग कार्यलेस्ट कोन्द्र कार्यलेस्ट केर्ड स्वार्थ कार्यलंस्ट केर्ड स्वार्थ कार्य केर्ड स्वार्थ केर्ड स्वार्थ कार्ड स्वार्थ के स्वार्थ केर्ड स्वार्थ कार्ड केर्ड स्वार्थ कार्ड स्वार्थ कार्ड केर्ड स्वार्थ कार्ड स्वार्थ कार्ड केर्ड स्वार्थ कार्ड स्वार्ड संग कार्ड संग कार्ड केर्ड स्वार्थ कार्ड स्वार्ड संग कार्ड संग कार्ड	जपावलम (८) थी साथ मारी भीराम सिटी पूर्ण बुद्धी अभिकार सिटी पूर्ण बुद्धी अभिकार सिटी पूर्ण बिसी किस्ता बिसी किस्ता बार्म किस्ता किस्ता कर के बार्म किस्ता किस्ता का बार्म किस्ता किस्ता कि बार्म किस्ता किस्ता किस्ता का बार्म किस्ता किस्ता किस्ता का बार्म किस्ता किस्ता किस्ता का बार्म किस्ता किस्ता किस्ता का बार्म किस्ता का किस्ता की बार्म बार्म किस्ता किस्ता का बार्म किस्ता का किस्ता का बार्म किस्ता का किस्ता का बार्म किस्ता का किस्ता का बार्म किस्ता का का किस्ता का बार्म किस्ता का का किस्ता का बार्म किस्ता का का किस्ता का	वेच्य प्राप्तान्त सिमिटेड कि
केठेनेहालेल काल्याच्या कालन १२ के किठानाल: पुंच्चे जिलागाः पुंच्चे पिताराज: १९४३,२०२२ (पायाय काल्यांने पायाने कालं किरोका कार्या कार्यातन कियानो कालं केपाले का राजा कार्यातन कियानो कालं केपाले का राजा कार्यातन कियानों कालं केपाले का केपालय केपालय कार्या कार्या कार्या केपालय केपालय कार्या कार्या कार्या कार्या केपालय केपालय कार्या कार्या कार्या केपालय केपाल कार्या कार्या कार्या कार्या केपालय केपाल कार्या केपाल कार्या केपालय केपाल कार्या कार्या कार्या केपालय केपाल कार्या कार्या कार्या कार्या केपाल केपाल कार्या कार्या केपाल कार्या केपाल कार्या कार्या कार्या कार्या केपाल कार्या कार्या कार्या कार्या केपाल कार्या कार्या कार्या कार्या केपाल कार्या कार्या कार्या कार्या कार्या केपाल कार्या केपाल कार्या केपाल कार्या केपाल कार्या केपाला कार्या कार्या कार्या कार्या कार्या कार्या केपाल कार्या केपालकार कार्या कार्या कार्या कार्या कार्या केपाल कार्या कार्या कार्या कार्या कार्या केपाला कार्या कार्या कार्या कार्या कार्या केपाल कार्या केपालकार कार्या कार्या कार्या केपाल कार्या केपाल कार्या केपाल कार्या केपाल कार्या केपाल केपाल कार्या केपालकार कार्या कार्या कार्या केपाल कार्या केपालकार कार्या कार्या कार्या कार्या कार्या कार्या केपाल कार्या केपालकार कार्या कार्या कार्या कार्या केपाल कार्या केपाल कार्या केपाल कार्या कार्या कार्या कार्या कार	जपावलम (८) थी साथ मारी भीराम सिटी पूर्ण बुद्धी अभिकार सिटी पूर्ण बुद्धी अभिकार सिटी पूर्ण बिसी किस्ता बिसी किस्ता बार्म किस्ता किस्ता कर के बार्म किस्ता किस्ता का बार्म किस्ता किस्ता कि बार्म किस्ता किस्ता किस्ता का बार्म किस्ता किस्ता किस्ता का बार्म किस्ता किस्ता किस्ता का बार्म किस्ता किस्ता किस्ता का बार्म किस्ता का किस्ता की बार्म बार्म किस्ता किस्ता का बार्म किस्ता का किस्ता का बार्म किस्ता का किस्ता का बार्म किस्ता का किस्ता का बार्म किस्ता का का किस्ता का बार्म किस्ता का का किस्ता का बार्म किस्ता का का किस्ता का	वेच्य प्राप्तान्त सिमिटेड कि
चेळेलेल्येन कारणप्रधा कारण १३ में जिलाए दुख्ये जिलाए हा २९.०३.२०२१ पिराण इ तरकारी संपर तोनेपिर प्राथम कार्यन, प्राथम कार्यने किस्त प्रायम कार्यन, प्राथम कार्यन्ति किस्त प्रायम कार्यन, प्राथम कार्यन्त कार्य- व्यापने कीर्यकार के बार्य कार्यन्त विवर, तरकार करा, उठ्ठा संगी किस्त विवर, तरकार करा, उठ्डा संगी किस्त प्रायम कार्यन्त कार्यन्त कार्यन्त कार्य- विवर, तरकार करा, उठ्डा संगी किस्त केर्ड किस्त के कार्यन्त कार्यन्त कार्य- विवर, तरकार करा, उठ्डा संगी किस्त कार्य कार्यन्त कार्यन्त कार्यन्त कार्य- विवर, तरकार करा, उठ्डा संगी किस्त कार्य क्रिस्ट करा, कार्यन्त कार्यन्त कार्य- विवर, तरकारण कार्यन्त कार्यन्त कार्य- कार्य कार्य कार्यन्त कार्यन्त कार्य- कार्य के कार्य कार्यन्त कार्यन्त कार्यन्त अप्रतिश्वार कार्य- कार्य कार्य कार्यन्त कार्य- विवर, तरकारण, तर्य- वीक्त के, कार्य-कार्य- कार्य कार्य- कार्य कार्य- कार्य-प्रायम, तर्यन्त कार्य- कार्य कार्य- वाय्य कार्य कार्य- कार्य कार्य- वाय्य कार्य- कार्य कार्य- कार्य- विवर करा, करार्य- वीक्त कार्य- कार्य- कार्य कार्य- कार- कार्य- कार- कार- कार- कार- कार- कार- कार- कार	जपायलमा (८) थी साहा भौरामा सिटी पूर्ण बुद्धी अभिष्यम् विश्व सिटी बुद्धी अभिष्यम् विश्व सिटी बुद्धी अभिष्यम् विश्व सिटी बिद्धां के सिटी पूर्ण बिद्धां के सिटी पूर्ण बिद्धां के सिटी पूर्ण बिद्धां के सिटी बिद्धां के सिटी बिद्धां के सिटी बिद्धां के सिटी बिद्धां के सिटी बिद्धां के सिटी बिद्धां के सिटी बिद्धां के सिटी बिद्धां के स्थान के सिटी बिद्धां के सिटी बिद्धां के सिटी बिद्धां के स्थान के सिटी बिद्धां के सिटी बिद्धां के स्थान के सिटी बिद्धां के सिटी बिद्धां के स्थान के स्थान बिद्धां के स्थान के स्थान के स्थान बिद्धां के सिटी बिद्धां के सिटी बिद्धां के सिटी बिद्धां के स्थान बिद्धां के स्थान के स्थान के स्थान बिद्धां के सिटी बिद्धां के सिटी बिद्धां के स्थान के स्थान बिद्धां के स्थान के स्थान के स्थान के स्थान बिद्धां के स्थान के स्थान के स्थान के स्थान बिद्धां के स्थान के स्थान के स्थान के स्थान बिद्धां के स्थान के सिटी बिद्धां के सिटी बिद्धां के स्थान के स्थान बिद्धां के स्थान के सिटी बिद्धां के सिटी बिद्धां के स्थान के स्था बिद्धां के सिटी बिद्धां के सिटी बिद्धां के स्थान के स्थान के स्थान बिद्धां के सिटी बिद्धां के सिटी बिद्धां के स्थान के स्थान के स्थान बिद्धां के स्थान के सिटी बिद्धां के स्थान के	वेषय प्राप्तान्त सिमिटेट जिल्ल, १९६१ जनमें) • • • • • • • • • • • • • • • • • • •
केठेनेहांगी कामदाग्या कामल १२ में जिसागाः दुर्ख्य विद्रार्गाः १२ २०२.२०२१ पिराणाः १९४० २३.२०२१ पिराणाः १९४० २३.२०२१ पिराणाः १९४० २३.२०२१ पिराणाः १९४१ २३.२०२१ पिराणाः १९४१ २३.२०२१ २३.२०२१ २३.२०२१ २३.२०२१ २३.२०२१ २३.२०२१ २३.२०२१ २३.२०२१ २३.२०२२ २३.२०२२ २३.२०२१ २३.२०२२ २३.२०२२ २३.२०२१ २३.२०२२ २३.२०२२ २३.२०२१ २३.२०२२ २३.२०२२ २३.२०२१ २३.२०२२ २३.२०२२ २३.२०२१ २३.२०२२ २३.२०२२ २३.२०२१ २३.२४.२२.२२२ २३.२४ २३.२२.२२२ २३.२४ २४ २४ २४ २४ २४ २४ २४ २४ २४ २४ २४ २४ २	जपायलमा (८) थी साहा भौरामा सिटी पूर्ण बुद्धी अभिष्यम् विश्व सिटी बुद्धी अभिष्यम् विश्व सिटी बुद्धी अभिष्यम् विश्व सिटी बिद्धां के सिटी पूर्ण बिद्धां के सिटी पूर्ण बिद्धां के सिटी पूर्ण बिद्धां के सिटी बिद्धां के सिटी बिद्धां के सिटी बिद्धां के सिटी बिद्धां के सिटी बिद्धां के सिटी बिद्धां के सिटी बिद्धां के सिटी बिद्धां के स्थान के सिटी बिद्धां के सिटी बिद्धां के सिटी बिद्धां के स्थान के सिटी बिद्धां के सिटी बिद्धां के स्थान के सिटी बिद्धां के सिटी बिद्धां के स्थान के स्थान बिद्धां के स्थान के स्थान के स्थान बिद्धां के सिटी बिद्धां के सिटी बिद्धां के सिटी बिद्धां के स्थान बिद्धां के स्थान के स्थान के स्थान बिद्धां के सिटी बिद्धां के सिटी बिद्धां के स्थान के स्थान बिद्धां के स्थान के स्थान के स्थान के स्थान बिद्धां के स्थान के स्थान के स्थान के स्थान बिद्धां के स्थान के स्थान के स्थान के स्थान बिद्धां के स्थान के सिटी बिद्धां के सिटी बिद्धां के स्थान के स्थान बिद्धां के स्थान के सिटी बिद्धां के सिटी बिद्धां के स्थान के स्था बिद्धां के सिटी बिद्धां के सिटी बिद्धां के स्थान के स्थान के स्थान बिद्धां के सिटी बिद्धां के सिटी बिद्धां के स्थान के स्थान के स्थान बिद्धां के स्थान के सिटी बिद्धां के स्थान के	वेषय प्राप्तान्त सिमिटेट जिल्ल, १९६१ जनमें) • • • • • • • • • • • • • • • • • • •
केठेनेहांगी कामदाग्या कामल १२ में जिसागाः दुर्ख्य विद्रार्गाः १२ २०२.२०२१ पिराणाः १९४० २३.२०२१ पिराणाः १९४० २३.२०२१ पिराणाः १९४० २३.२०२१ पिराणाः १९४१ २३.२०२१ पिराणाः १९४१ २३.२०२१ २३.२०२१ २३.२०२१ २३.२०२१ २३.२०२१ २३.२०२१ २३.२०२१ २३.२०२१ २३.२०२२ २३.२०२२ २३.२०२१ २३.२०२२ २३.२०२२ २३.२०२१ २३.२०२२ २३.२०२२ २३.२०२१ २३.२०२२ २३.२०२२ २३.२०२१ २३.२०२२ २३.२०२२ २३.२०२१ २३.२०२२ २३.२०२२ २३.२०२१ २३.२४.२२.२२२ २३.२४ २३.२२.२२२ २३.२४ २४ २४ २४ २४ २४ २४ २४ २४ २४ २४ २४ २४ २	जपायलमा (८) थी साहा भौरामा सिटी पूर्ण बुद्धी अभिष्यम् विश्व सिटी बुद्धी अभिष्यम् विश्व सिटी बुद्धी अभिष्यम् विश्व सिटी बिद्धां के सिटी पूर्ण बिद्धां के सिटी पूर्ण बिद्धां के सिटी पूर्ण बिद्धां के सिटी बिद्धां के सिटी बिद्धां के सिटी बिद्धां के सिटी बिद्धां के सिटी बिद्धां के सिटी बिद्धां के सिटी बिद्धां के सिटी बिद्धां के स्थान के सिटी बिद्धां के सिटी बिद्धां के सिटी बिद्धां के स्थान के सिटी बिद्धां के सिटी बिद्धां के स्थान के सिटी बिद्धां के सिटी बिद्धां के स्थान के स्थान बिद्धां के स्थान के स्थान के स्थान बिद्धां के सिटी बिद्धां के सिटी बिद्धां के सिटी बिद्धां के स्थान बिद्धां के स्थान के स्थान के स्थान बिद्धां के सिटी बिद्धां के सिटी बिद्धां के स्थान के स्थान बिद्धां के स्थान के स्थान के स्थान के स्थान बिद्धां के स्थान के स्थान के स्थान के स्थान बिद्धां के स्थान के स्थान के स्थान के स्थान बिद्धां के स्थान के सिटी बिद्धां के सिटी बिद्धां के स्थान के स्थान बिद्धां के स्थान के सिटी बिद्धां के सिटी बिद्धां के स्थान के स्था बिद्धां के सिटी बिद्धां के सिटी बिद्धां के स्थान के स्थान के स्थान बिद्धां के सिटी बिद्धां के सिटी बिद्धां के स्थान के स्थान के स्थान बिद्धां के स्थान के सिटी बिद्धां के स्थान के	वेषय प्राप्तान्त सिमिटेट जिल्ल, १९६१ जनमें) • • • • • • • • • • • • • • • • • • •
पोकेसेल्वीन कारकपारचा कारकल १३ में जिलागाः पुंचनुं जिलागाः पुंचनुं पितागाः २०८०३.२०२२ (पातानु कारकी संभा क्रिसिक व्यक्ति किस्सा प्राय वार्थात्व, किस्सा कार्य क्रिसिक व्यक्तियां क्रिक्सा के क्रिसिक वार्यात्व, क्रिस्सा क्रिसिक वार्यात्व, क्रान्सा कर्म, क्रान्स के विक्सा क्रान्स क्रान्स, क्रान्स के क्रिसिक विक्सा क्रान्स क्रान्स, क्रान्स के क्रिसिक विक्सा क्रान्स क्रान्स क्रान्स विक्सा क्रान्स क्रान्स क्रान्स विक्रान्स क्रान्स क्रान्स क्रान्स क्रान्स क्रान्स क्रान्स क्रान्स क्रान्स क्रान्स	उपायलमा (८) थी साथ भारत भारतमा सिटी भुर्ग दुस्ती वादिष्यप्र के सिटी भुर्ग दुस्ती वादिष्यप्र के सिटी भुर्ग दुस्ती वादिष्यप्र के सिटी भुर्ग साथ के सिटा प्रदेश के सिटी मार्ग के सिटा प्रदेश के सिटी मार्ग के सिटा प्रदेश के सिटा प्राय के सिटा के सिटा के सिटा प्राय के सिटा प्राय के सिटा के सिटा के सिटा प्राय के सिटा के सिटा के सिटा के सिटा प्राय के सिटा के सिटा के सिटा के सिटा प्राय के सिटा के सित	वेवय प्राप्तानमा सिमिटेड किल, राहा जमां) ब, स्वर्थ तेव (स), आण्डा- राहा पर वी ज वर्षां के जमेल्स के स्वर्थ तेव (स), आण्डा- राहा पर वी के प्राप्त (स), आण्डा- राहा पर वी के प्राप्त (स) के जमेल के प्राप्त के प्राप्त (के प्राप्त (स)) के प्राप्त के प्राप्त (के प्राप्त (स)) के प्राप्त के प्राप्त (के प्राप्त (स)) के प्राप्त के प्राप्त (स) के प्राप्त के प्राप्त के प्राप्त के प्राप्त के प्राप्त (स) के प्राप्त के प्राप्त के प्राप्त के प्राप्त के प्राप्त के प्राप्त के प्राप्त (स) के प्राप्त के प्राप्त के प्राप्त के प्राप्त के प्राप्त के प्राप्त (स) के प्राप्त के प्राप्त के प्राप्त के प्राप्त के प्राप्त के प्राप्त के प्राप्त (स) के प्राप्त के

